



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, बुधस्पातिवार, जनवरी 9, 2003/पौष 19, 1924

No. 14]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2003/PAUSA 19, 1924

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 19(अ)/आष्क/ईख.—केन्द्रीय सरकार ईख (नियंत्रण) आदेश, 1986 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उपखण्ड (i) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के दिनांक 12 दिसम्बर, 2002 के आदेश संख्या सा0का0नि0 821(आ0) आ0अ0/ई0 का अधिक्रमण करते हुए ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और एसोसिएशनों जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझती हो से परामर्श करने के पश्चात और 8.5 प्रतिशत चीनी की मूल रिकवरी से सम्बद्ध करने के 69.50 रुपये प्रति क्विंटल की मूल न्यूनतम कीमत जो इस स्तर से अधिक रिकवरी के लिए प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि के लिए 0.82 रुपये के प्रीमियम की शर्त के अधीन हो, के आधार पर एतद्वारा इससे उपाबद्ध अनुसूची के भाग-I स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकर्ताओं द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर 30 सितम्बर, 2003 को समाप्त होने वाले चीनी वर्ष 2002-2003 के लिए परिदत्त ईख के लिए संदेय होगी, किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड 3-क के अधीन उसके लिए संदेय सिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

अनुसूची

भाग-I

क्रम संख्या	कोड नंबर	क्षेत्र का नाम	गन्ने का न्यूनतम मूल्य रुपये प्रति बिघटल में
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	23601	दि निज़ाम शुगर फैक्टरी लि०, पो०आ० संकसगर, जिला निज़ामाबाद	*
2.	23602	दि निज़ाम शुगर फैक्टरी लि०, पो०आ० दिदगी, ताल्लुक ज़हीरुद्दीन, जिला मेडक	*
3.	23605	निज़ाम शुगर फैक्टरी लि०, पो०आ० मेटपल्ली, जिला करीमनगर	69.50
4.	23608	दि निज़ाम शुगर फैक्टरी लि०, पो०आ० मंभापाली तालुका एवं जिला मेडक	*
5.	23609	निज़ाम शुगर फैक्टरी लि०, पो०आ० लक्ष्मपेटा बोबली निंदल जिला त्रिजियानगरम्	83.44
6.	23701	दि निज़ाम कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लि०, निज़ामाबाद, जिला निज़ामाबाद	89.18
7.	23801	अमादवालसा कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लि०, पो०आ० अमादवालसा, जिला श्रीकाकुलम	82.62
8.	23901	द चोदावरम कोआपरेटिव शुगर लि०, पो०आ० गोवादा, जिला विशाखापट्टनम	85.08
9.	24001	अनाकापाले कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लि०, पो०आ० अनाकापाले, जिला विशाखापट्टनम	*
10.	24101	दि एट्टीकोपाका कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लि०, पो०आ० एट्टीकोपाका, जिला विशाखापट्टनम	*
11.	24201	दि थॉडव कोआपरेटिव शुगर लि०, पो०आ० प्याकराओपेटा, जिला विशाखापट्टनम	80.16
12.	24301	श्री विजयसमा गजपति कोआपरेटिव शुगर लि०, पो०आ० कोरुकोंडा (भीमसिंघी) तालुका सून्ग्वारुकोटा, जिला विशाखापट्टनम	*
13.	24501	वेस्ट गोदावरी कोआपरेटिव शुगर लि०, श्रीमाडोले तालुका ऐलेरु, जिला वेस्ट गोदावरी	84.26
14.	24601	श्री हनुमान कोआपरेटिव शुगर लि०, पो०आ० वीसवल्ली हनुमान जंक्शन, जिला कृष्णा-524405	*
15.	24701	दि पालेयर कोआपरेटिव शुगर लि०, पो०आ० राजेश्वरपुरम्, जिला खम्मम-507160	*
16.	25101	दि नन्नापन्नी वेंकटराव कोआपरेटिव शुगर लि०, जामपानी पोस्ट तालुक टिनाली जिला गुंटूर-522261	72.78
17.	25201	दि कोवूर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लि०, कोवूर तालुक जिला नित्तौर-524005	69.50
18.	25301	दि चित्तूर कोआपरेटिव शुगर लि०, चित्तूर पोस्ट, तालुक सवातेपल्ली जिला चित्तूर-517003	74.42
19.	25401	श्री वेंकटेश्वर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लि०, पो०आ० गजूलामंडायम (तिरुपति) स्नीगुंटा जिला चित्तूर	*
20.	25501	वी वी एस शुगर (दि जयपोर शुगर कं. लि०) पो०आ० चगल्लू जिला वेस्ट गोदावरी-534342	93.28
21.	25601	आंध्रा शुगर लि०, पो०आ० टनकू जिला वेस्ट गोदावरी-534215	89.18
22.	25602	दि आंध्रा शुगर लि०, टुडुवाई जिला वेस्ट गोदावरी	94.92
23.	25801	नवभारत फ़ैरो एलॉयस लि०, समालकोट जिला ईस्ट गोदावरी-533440	88.36
24.	25901	श्री सरवरया शुगर लि०, पो०आ० चेलूरु तालुका रामचंद्रपुरम्, जिला ईस्ट गोदावरी-533261	93.28

1	2	3	4
25.	28001 दुयूरु	दि के सी पी शुगर एंड इंडस्ट्रीस कारपोरेशन लि, पो0आ0 दुयूरु जिला कृष्णा	85.90
26.	28101 लक्ष्मीपुरम	दि के सी पी शुगर एंड इंडस्ट्रीस कारपोरेशन लि, लक्ष्मीपुरम जिला कृष्णा	76.88
27.	34301 कल्लूर	श्री कैलास शुगर एंड केमिकल्स लि0, पेरुनुचा तालुका कल्लूर मंडल जिला खम्माम-507209	80.16
28.	34401 नायडुपेट	एम0पी0 शुगर एंड केमिकल्स लि0, हायड्रापेडीपलम, नायडुपेट मंगलम, जिला नेल्लौर-524128	*
29.	34901 कुम्मास्नाथम	श्री वाणी शुगर एंड इंडस्ट्रीस लि0, कुम्मास्नाथम पो. पुंगानूर-517247 जिला चित्तूर	*
30.	42801 निद्रा	प्रूडेंशल मीली शुगर लि0, पो0आ0 कोपेडु तालुका निद्रा मंडल जिला चित्तूर-517787	73.60
31.	43801 मौशनगर	सुदालाल गुंटा शुगर लि0, कटूर पो0आ0 मौशनगर बच्चननायडू कानमिना मंडल जिला चित्तूर-517844	*
32.	43801 जी एस कॉम्पलेक्स	गायत्री शुगर कॉम्पलेक्स लि0, प्रभास्विपट्टनम पदालाकुर मंडल जिला नेल्लौर	71.14
33.	44801 एन सी एस गायत्री	एन सी एस गायत्री शुगर लि0, टी एस आर टाउन-6-3-1090, राजमवन सैड	*
34.	44701 सांगारेडडी	गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि0, कुलुबनूर सांगारेडडी मंडल जिला मेडक	85.90
35.	44901 वसलक्ष्मी	वसलक्ष्मी शुगर लि0, संकिलिरेजिडीअमाडालावोसला मंडल जिला श्रीकाकुलम	*
बिहार			
1.	21501 हसनपुर	न्यू इंडिया शुगर मिल्स लि0, पो. ऑ. हसनपुर रोड, जिला समस्तीपुर-848205	71.96
2.	21801 बगाहा	बगाहा चीनी मिल्स लि0, नरायणपुर जिला वेस्ट चम्पारण	76.88
3.	21701 हस्तिनगर	हस्तिनगर शुगर मिल्स लि0, पो0आ0 हस्तिनगर जिला वेस्ट चम्पारण-845103	76.88
4.	21801 नरकाटियागंज	दि अवध शुगर मिल्स लि0, पो0आ0 नरकाटियागंज, जिला वेस्ट चम्पारण-845455	75.24
5.	21901 मझौलिया	मोतीलाल पदमपत उद्योग लि0, पो0आ0 मझौलिया, जिला वेस्ट चम्पारण	70.32
6.	22101 मोतीहारी	मोतीहारी चीनी उद्योग लि0, लीजी ऑफ मैसर्स ईस्टर्न शुगर मिल्स लि0, पो0आ0 हनुमान, मोतीहारी, जिला ईस्ट चम्पारण-845401	*
7.	22201 सासामूसा	सासामूसा शुगर वर्क्स प्रा. लि0, पो0आ0 सासा मूसा, जिला गोपालगंज	*
8.	22301 गोपालगंज	दि विष्णु शुगर मिल्स लि0, गोपालगंज, जिला गोपालगंज	71.96
9.	22401 सिधवालिया	भास्त शुगर मिल्स लि0, पो0आ0 सिधवालिया, जिला गोपालगंज	69.50
10.	22501 सीगा	सीगा शुगर कं. लि0, पो0आ0 सीगा, जिला सीतामरही	73.60
असम			
1.	22901 नवगांव	नवगांव कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, कामपुर जिला नवगांव	*
उड़ीसा			
1.	23001 अस्का	दि अस्का कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लि0, नयागांव (अस्का), जिला गंजम-760001	73.60
2.	23101 बारागढ़	दि बारागढ़ कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, (फैनी शुगर एंड केमिकल्स लि0 के प्रबंध के अधीन) पो0आ0 टोरा बारागढ़, जिला संबलपुर	74.42

1	2	3	4
3.	30803 धेनकनाल	सक्थी शुगर लि०, पो०आ० हरिपुर, ग्राम तहसील धनकनाल सदर, जिला धेनकनाल	75.24
4.	32701 बदबा	बदबा कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लि०, (सक्थी शुगर लि० के प्रबंध के अधीन) तहसील बदबागढ़, जिला कटक	75.24
पश्चिम बंगाल			
1.	23301 अहमदपुर	वैस्ट बंगाल शुगर इंडस्ट्रीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन लि०, अहमदपुर, जिला बिरभूम-731201	69.50
2.	23401 प्लासी	खेधान एग्रो इंडस्ट्रीज लि०, पो०आ० प्लासी, जिला नदिया-741157	*
हरियाणा			
1.	01101 रोहतक	दि हरियाणा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० रोहतक-124001	83.44
2.	01201 पानीपत	दि पानीपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० पानीपत-132103, जिला पानीपत	78.52
3.	01301 कस्नाल	दि कस्नाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० कस्नाल-132001, जिला कस्नाल	80.98
4.	01401 सोनीपत	सोनीपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० सोनीपत, जिला सोनीपत-131001	80.98
5.	01501 शाहबाद	शाहबाद कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, शाहबाद मस्खंडा-132135, जिला कुरुक्षेत्र	84.26
6.	01601 पलवल	दि पलवल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, तहसील पलवल-121101, जिला फरीदाबाद	*
7.	01701 जौंद	दि जौंद कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, तहसील एवं जिला जौंद-126102	78.52
8.	01601 यमुनानगर	दि सरस्वती शुगर मिल्स पो०आ० यमुनानगर, जिला अम्बाला-135001	87.54
9.	33801 कैथल	दि कैथल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, कैथल (हरियाणा)-132027, जिला कुरुक्षेत्र	78.52
10.	33901 महम	दि महम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, महम-124112, जिला रोहतक	80.16
11.	34101 भुना	दि भुना कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, भुना-126008, तहसील फतेहबाद, जिला हिसार	69.50
12.	37701 नारायणगढ़	नारायणगढ़ शुगर मिल्स लि०, नारायणगढ़, जिला अम्बाला	80.98
13.	42202 भादसन	मैसर्स पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लि०, सेक्टर्स-17-ए, एस सी ओ 40-41, चंडीगढ़, ग्राम भादसन उमरी रोड, इंद्री लोकेशन, जिला कस्नाल	*
14.	52001 सिरसा	चौधरी देवीलाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, -पन्नीवाला मोटा, जिला सिरसा	*
15.	42701 गोहाना	दि हरियाणा स्टेट फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, गोहाना, जिला सोनीपत	*
दक्षिणी गुजरात			
1.	10101 बास्दोली	श्री खेदूत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, सस्दाबाग, पो० बास्दोली, जिला सूस्त-394601	95.74
2.	10201 माघी	श्री माघी विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो० माघी जिला सूस्त-394340	91.64
3.	10301 छलटन	श्री छलटन विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, पो० छलटन, जिला सूस्त-394305	93.28
4.	10401 सयान	श्री सयान विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो० सयान, जिला सूस्त-394130	92.46

1	2	3	4
5.	10501 महुआ	श्री महुआ प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो० शुगर फैक्ट्री बमानिया, तह० महुआ, जिला सूस्त-394240	94.92
6.	10601 पनियारी	श्री उकाई प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो० पनियारी, जिला सूस्त	82.62
7.	10701 गणदेवी	दि सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, गणदेवी, बाया बिल्लीमोर, जिला वलसाड-396360	96.56
8.	10801 मासेली	श्री मासेली विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, कल्याण नगर, पो० मासेली बाजार, जिला वलसाड	86.72
9.	10901 वलसाड	श्री वलसाड सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पास्नेर-पारडी, जिला वलसाड-396001	*
10.	11101 कामरेज	श्री कामरेज विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो०आ० नवी परदी-394150, तालुका कामरेज, जिला सूस्त	94.92
11.	32101 वतारिया	श्री गणेश खांड सहकारी उद्योग मंडली लि०, दसाड वतारिया, ता० वाली, जिला भरुच	88.36
12.	40901 घारीखेडा	श्री नमर्दा खांड सहकारी उद्योग मंडली लि०, घारीखेडा, पो० तितवी, ता० नानदेड, जिला भरुच	88.36
13.	41001 गंधार	बसेदरा जिला सहकारी शुगरकेन प्रोवर युनियन लि०, पो० गंधार, ता० करुजान, जिला बसेदरा	80.98
14.	41101 कोसाम्बा	श्री खेदूत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पांडवी तालुक, हंसोत, जिला भरुच, पो०बा० नं० 3 कोसाम्बा-394120	88.36
15.	43101 लादोड	सरदार कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लि०, तह० सांखेड, जिला बसेदरा	*
गुजरात(सौराष्ट्र)			
16.	11001 कोदिनूर	श्री विलेस्वर खांड उद्योग खेदूत सहकारी उद्योग मंडली लि०, पो० कोदिनूर, जिला अमरेली-364601	*
17.	11301 तलाला	श्री तलाला तालुका सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो० तलाला (गिरी), जिला जूनागढ़-362150	*
कर्नाटक			
1	17203 समीरवाडी	दि गोदावरी शुगर मिल्स लि०, पो०आ०-समीरवाडी, तहसील-मुधोल, जिला- बीजापुर-587316	96.56
2	26201 मांडया	दि मैसूर शुगर के० लि०, मांडया, जिला मांडया	*
3	26301 गंगावती	गंगावती शुगर लि०, पो०-प्रगति नगर, तालु० गंगावती जिला रायचूर-583268	75.24
4	26401 भद्रावती	दि मैसूर पेपर मिल्स लि०, पो०आ०-पेपर टाउन, भद्रावती, जिला शिमोगा-577302	89.18
5	26501 पांडवपुरा	पांडवपुरा एस०एस०के० लि०, पो०आ०-पांडवपुरा, जिला मांडया-571435	*
6	26601 निपानी	श्री हलसिद्धनाथ एस०एस०के० लि०, पो०आ०-निपानी, तालु०-धिकोडी, जिला बेलगाम-591237	103.12
7	26701 संकेस्वर	श्री हिरण्यकेशी एस०एस०के० नियमित, पो०आ०-संकेस्वर, जिला- बेलगाम-591314	101.48
8	26801 मालाप्रभा	श्री मालाप्रभा कॉप० शुगर फैक्ट्री लि०, पो०आ०-मुगुधन हुबली जिला बेलगाम-591153	87.54
9	26901 धिकोडी	श्री दूधगंगा कृष्णा एस०एस०के० नियमित, पो०आ०-धिकोडी, जिला बेलगाम-591247	100.66
10	27001 रायबाग	रायबाग एस०एस०के० नियमित, तालुक रायबाग जिला बेलगाम-591247	*

1	2	3	4
11	27101 गोकाक	दि घटाप्रभा एस0एस0के0 नियमित, पो0आ0-गोकाक, जिला बेलगाम	95.74
12	27301 गौरीबिदनौर	श्रीगुप्पा शुगर्स एंड केमिकल्स लि0, यूनिट-गौरीबिदनौर, जिला कोलार-581208	*
13	27401 बिदर	बिदर एस0एस0के0 लि0, हल्लीखेड, जिला बिदर	87.54
14	27501 वाणीविलास	वाणी विलास कॉपो शुगर फैक्ट्री लि0, पो0आ0-हीरैयूर, जिला चित्रदुर्ग	*
15	27601 भद्रा	भद्रा एस0एस0के0 नियमित, पो0आ0-डोडाबाटी, तालुक देवनगरे, जिला चित्रदुर्ग-577508	87.54
16	27701 कें0आर0 नगर	श्रीसमा एस0एस0के0 लि0, चुनचनकाटे, कृष्णाराजनगर, मैसूर रोड, जिला- मैसूर	*
17	27801 हावेरी	कर्नाटक एस0एस0के0 लि0, हावेरी, जिला- धारवाड़-581110	85.08
18	27901 हेमावती	दि हेमावती एस0एस0के0 लि0, पो0आ0- श्रीनिवासपुर, चन्नायवचना तालुक, जिला- हसन-573116	*
19	28001 ब्रह्मावाड	दक्षिण कन्नड़ सहकारी साखर कारखाना लि0, ब्रह्मावाड, दक्षिण कन्नड़-576213	73.60
20	28101 चामुंडेश्वरी	श्री चामुंडेश्वरी शुगर्स लि0, पो0आ0-मास्ती नगर, जिला-मांडया-571422	78.52
21	28401 उग्रखुर्द	दि उग्र शुगर वर्क्स लि0, पो0आ-उग्रखुर्द, जिला बेलगाम-591316	98.20
22	28501 होसपेट	दि इंडिया शुगर एण्ड रिफाइनरीज लि0, डाकघर- चिटवाडगी, तालुक होसपेट, जिला बेल्लारी-583211	89.18
23	28601 सिरुगुप्पा	सिरुगुप्पा शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि0, पो0आ0-दसामुक, बेल्लारी-583140	85.08
24	28701 दावनगेरे	दावनगेरे शुगर कं0 लि0, कुक्काबाडा, तालुक दावनगेरे, जिला चित्रदुर्ग	*
25	28801 कोल्लेगल	खोडे डिस्टलरीज लि0, पो0आ0-कोल्लेगल, जिला- मैसूर	*
26	30902 बी0ए0एस0	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि0, यूनिट-II, अलगगांभी गांव, तालु. नन्जनगुड, जिला- मैसूर	*
27	32501 अलंद	एस0एस0के0 नियमित, पो0आ0-भुसनूर, तहसील-अलंद, जिला-गुलबर्ग-585302	79.34
28	35401 बीजापुर	दि नन्दी एस0एस0के0 नियमित, तालुक कृष्णानगर, नजदीक चिक्का गालागली, जिला-बीजापुर-586101	95.74
29	40601 कुप्तागिरि	श्री भाग्यलक्ष्मी एस0एस0के0 लि0, कुप्तागिरि तालुक-खानापुर-91302, जिला-बेलगाम	90.82
30	45401 जामखंडी	जामखंडी शुगर्स लि0, हिरापदसादगी, तह0 जामखंडी, जिला बीजापुर	96.56
31	45601 राणा नगर	रायतारा एस0एस0के0 नियमित राणानगर, तालु. मुघोल, जिला-बागलकोट-587313	96.56
32	49801 शामानूर (दुग्गावती)	शामानूर शुगर लि0, दुग्गावती, तालुक-हस्दनहल्ली, जिला दवनगेरे	83.44
33	49901 मक्कावल्ली	आई0सी0एल0 शुगर्स लि0, न्यू हेमावती एक्सटेंशन, किक्केरी रोड, तालुक-कें0आर0 पेट-571426, जिला-मांडया	*
34	50201 मनोली	रेनूका शुगर्स लि0, मनोली, तालुक-सवादाती, जिला बेलगाम	*
35	50301 सिद्धापुर	प्रभुलिंगेश्वर शुगर वर्क्स लि0, सिद्धापुर, तालुक-जामखंडी, जिला- बागेलकोट	103.12
36	51901 मुघोल	निसानी शुगर्स लि0, मुघोल-507313, जिला बागलकोट	*

1	2	3	4
37.	52002 वैकटेश्वर	वैकटेश्वर पावर प्रोजेक्ट लि०, बेलाकिहाल तालुक बिकोडी, जिला बेनगल	90.00
38.	52004 मदाभाई	मै० अतानी फार्मर्स युगर फेक्ट्री लि०, मदाभाई गांव, तालुक अतानी, जिला बेलगल	94.92
केरल			
1	31301 चित्तूर	दि कोआपरेटिव युगर लि०, चित्तूर, मेनोनपास, ठाकधर जिला पालघाट	*
गोवा			
1	31501 तिस्का	संजीवनी एस०एस०के० लि०, दयानन्दनगर पोस्ट तिस्का, जिला- गोवा	73.60
मध्य प्रदेश			
1	09301 मुर्ना	मुर्ना मंडल एस०एस०के० लि०, कैलास, जिला-मुर्ना-476224	80.98
2	09401 बारलाई	मालवा एस०एस०के० लि०, बारलाई (काशीपाबा) जिला- इन्दौर	73.60
3	09501 नवल नगर	नवलसिंह सहकारी साखर कारखाना मर्यादित, नवल नगर, दुधनपुर, जिला-खंडवा-460311	88.36
4	09601 डाबर	दि ग्वालियर युगर लि०, डाबर, जिला- ग्वालियर-475110	81.80
5	09901 सिहोर	दि मोपाल युगर इंडस्ट्रीज लि०, ठाकधर और जिला- सिहोर-466003	*
6	37201 खालबुजुर्ग	नर्मदा युगर लि०, खालबुजुर्ग, तहसील-कस्सराबाद, जिला-खरगीन	82.62
7	51201 कृष्क	कृष्क सहकारी साखर कारखाना मर्यादित, नरायणपुर, तहसील-रावलगाढ़, जिला गुना	*
8	51701 खरगीन	जवाहर लाल नेहरू सूत मिल लि० सरस्वदेवला, जिला खरगीन	88.36
महाराष्ट्र			
1	11801 निफाड	निफाड एस०एस०के० लि०, पो०आ०-भावसाहेबनगर, तालुक-निफाड, जिला-नासिक-422301	98.20
2	11901 कर्मवीर	कर्मवीर काकासाहेब वाघ एस०एस०के० लि०, रनवाड, ता० निफाड, जिला नासिक-422304	*
3	12001 मतेस्वाडी	कडवा एस०एस०के० लि०, मतेस्वाडी, ता० दन्डोरी, जिला नासिक-42209	103.12
4	12101 पालसे	नासिक एस०एस०के० लि०, पालसे, जिला नासिक-423808	94.92
5	12201 विधेवाडी	वसन्तराव दादा एस०एस०के० लि०, विधेवाडी (लोहनेरे), जिला- नासिक	91.64
6	12301 संजीवनी	दि संजीवनी (तकली) एस०एस०के० लि०, पो०आ०-कोपरगांव, जिला अहमदनगर-423602	99.02
7	12401 कोपरगांव	दि कोपरगांव एस०एस०के० लि०, पो०आ०-कोलपेवाडी, जिला-अहमदनगर-423602	95.74
8	12501 गणेशनगर	श्री गणेश एस०एस०के० लि०, गणेशनगर, पो०आ०-रंजनगांव खुर्द, जिला अहमदनगर-413719	96.56
9	12601 अशोकनगर	अशोक एस०एस०के० लि०, अशोकनगर, कारेगांव फेक्ट्री, पो०आ०-श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर-413712	99.84

1	2	3	4
10	12701 प्रवारानगर	पदमश्री डा० विठ्ठलराव विखे पाटिल एस०एस०के० लि०, प्रवारानगर, जिला अहमदनगर-413712	98.20
11	12801 राहुडी	दि राहुडी एस०एस०के० लि०, पो०आ०-राहुडी फैक्ट्री, जिला अहमदनगर-413706	98.20
12	12901 श्रीगोंडा	दि श्रीगोंडा एस०एस०के० लि०, पो०आ०-श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर-413701	90.82
13	13001 संगमनेर	संगमनेर भाग एस०एस०के० लि०, अमृतनगर, ता० संगमनेर, जिला-अहमदनगर-422603	100.66
14	13101 भेंडे	श्री ध्यानेश्वर एस०एस०के० लि०, भेंडे, ता० नेवासा, जिला अहमदनगर-414603	99.02
15	13201 वृद्धेश्वर	श्री वृद्धेश्वर एस०एस०के० लि०, भेंडे, पो०आ०-वृद्धेश्वर साखर कारखाना, ता० पथारडी, जिला अहमदनगर (पिम्पलगांव)-414505	85.90
16	13301 जगदम्बा	श्री जगदम्बा एस०एस०के० लि०, रशीन, तह० करजाट, जिला अहमदनगर-414403	*
17	13401 सोनाई	दि मूला एस०एस०के० लि०, सोनाई, ता० नेवासा, जिला अहमदनगर-414105	105.58
18	13501 पारनेर	पारनेर तालुका एस०एस०के० लि०, पारनेर, जिला अहमदनगर	*
19	13601 नीरा	श्री सोमेश्वर एस०एस०के० लि०, पो०आ०-सोमेश्वरनगर, नीरा, जिला पुणे-412102	96.56
20	13701 मालेगांव	दि मालेगांव एस०एस०के० लि०, मालेगांव बी०के०, जिला पुणे-423203	100.66
21	13801 भवानीनगर	श्री छत्रपति पाटिल एस०एस०के० लि०, भवानीनगर तहसील, तालुक-बारामती, इंदापुर, जिला पुणे-413104	94.92
22	13901 थेऊर	यशवंत एस०एस०के० लि०, चिन्तामणिनगर, पो०आ०-थेऊर तालुक-हवेली, जिला पुणे-412110	99.02
23	14001 पातस	भीमा एस०एस०के० लि०, पो०आ०-पातस, तालुक-दौद, जिला-पुणे-412215	95.74
24	14101 जुन्नार	श्री विघ्नहर एस०एस०के० लि०, जुन्नार, एट एंड पो० शिरोल बी०के०, जिला पुणे	*
25	14201 अक्लुज	सहाकार महर्षि शंकरराव मोहिते पाटिल एस०एस०के० लि०, शंकरनगर, अक्लुज यशवंतनगर, तालुक-मालशिरस, जिला शोलापुर-413118	103.12
26	14301 सदाशिवनगर	श्री शंकर एस०एस०के० लि०, सदाशिवनगर तालुक-मालशिरस, जिला शोलापुर-412111	96.56
27	14401 कुमाथे	श्री सिद्धेश्वर एस०एस०के० लि०, कुमाथे, पो०आ०-टिकेकावाडी, जिला शोलापुर-413304	94.10
28	14501 गुरसाले	श्री विठ्ठल एस०एस०के० लि०, गुरसाले, ता० पंढरपुर, जिला शोलापुर-413304	100.66
29	14601 वैराग	भोगवती एस०एस०के० लि०, इरले वैराग ता० बारसी, जिला शोलापुर-413402	86.72
30	14701 भीमा	भीमा सहकारी साखर कारखाना लि०, सिकंदर तकली, तह०-माहोल, जिला शोलापुर-413402	102.30
31	17101 रावलगांव	दि रावलगांव शुगर फार्म लि०, रावलगांव, जिला नासिक	86.72
32	17701 मालीनगर	दि ससवाड माली शुगर फैक्ट्री लि०, पो०आ०-मालीनगर, जिला शोलापुर-413108	99.02

1	2	3	4
33	17801 श्रीपांडुरंग	श्री पांडुरंग एस0एस0के0 लि0, पो0आ0-श्रीपुर तालुक-मालशिरस, जिला सोलापुर-413112	108.86
34	33101 इंदापुर	इंदापुर एस0एस0के0 लि0, महात्मा फुलेनगर (बीजावाडी), पुणे-सोलापुर रोड, ता0 इंदापुर, जिला पुणे	96.56
35	34001 राजगड	राजगड एस0एस0के0 लि0, निगाडे, ता0 भोर, जिला पुणे	91.64
36	35301 अगस्ती	भाऊसाहेब महादेव हांडे अगस्ती एस0एस0के0 लि0, अगस्तीनगर, तह0 अकोला, जिला अहमदनगर	92.46
37	35501 संत दामाजी	श्री संत दामाजी एस0एस0के0 लि0, शिरानादागी, मंगलवेधा, जिला सोलापुर	90.82
38	39001 केदारेस्वर	केदारेस्वर एस0एस0के0 लि0, सुमन नगर पो0 बोधगांव, तह0 शेगांव, जिला अहमदनगर-414503	88.36
39	39501 संत तुकासम	श्री संत तुकासम एस0एस0के0 लि0, कसारसई दारुबरे, पो0आ0-दांदखेड, ता0 मुलसी, जिला पुणे	102.30
40	40001 शिरूर	घोडगंगा एस0एस0के0 लि0, नहावारे, तह0 शिरूर, जिला पुणे	100.66
41	40201 पास्तूर	श्री बागेश्वरी एस0एस0के0 लि0, ता0 पास्तूर, जिला जालना	*
42	46201 अम्बेगांव	भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना लि0, अम्बेगांव माया अपसारी, तह0 जिला पुणे	97.38
43	50901 लोकमंगल	लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज लि0, गांव बीबीदारफल, ता0 नार्थ सोलापुर, जिला सोलापुर	*
44	51501 साईकृपा	साईकृपा साखर कारखाना लि0, देवदधान, ता0 श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर	90.00
45	52301 लक्ष्मीनगर	लोकनेते बाबूराव पाटिल एस0एस0के0 लि0, लक्ष्मीनगर अंगर, तालुक मोहोल, जिला सोलापुर	95.74
46	52003 नगर तालुक	नगर तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि0, वाल्की, तालुक नागास, जिला अहमदनगर	85.90
47	52801 नीरा भीमा	नीरा भीमा सहकारी शक्कर कारखाना लि0, शाहेजी नगर, तालुक इंदापुर, जिला पुणे	*
48	39601 संगोला	संगोला तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि0, वाकी (सीवाने), तालुक संगोला, जिला सोलापुर	*
49	52001 पिनपालनेर	विठ्ठलराव शिंदे सहकारी शक्कर कारखाना लि0, गंगामेल नगर, तालुक माधा, जिला कोल्हापुर	98.20
50	14801 श्रीराम	श्रीराम सहकारी शक्कर कारखाना लि0, फलटन, जिला सतारा-415523	*
51	14901 कृष्णा	कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना लि0, स्थारे बुडरुक, पो0आ0-शिवनगर, जिला सतारा-415108	101.48
52	15001 भुईज	किसानवीर सतारा सहकारी शक्कर कारखाना लि0, भुईज, ता0 वाई, जिला सतारा	91.64
53	15101 मराठी	बालासाहेब देसाई सहकारी शक्कर कारखाना लि0, दौलतनगर(मराठी), ता0 पटन, जिला सतारा-451206	*
54	15201 सहयाद्री	सहयाद्री सहकारी शक्कर कारखाना लि0, यशवंतनगर, ता0 कराड, जिला सतारा-415110	103.94
55	15301 शेंद्रे	अजिंक्यत्रा सहकारी शक्कर कारखाना लि0, शेंद्रे, जिला सतारा	*
56	15401 सांगली	वसन्तदास शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि0, पो0 और जिला सांगली	101.48

1	2	3	4
57	15501 वाल्वा	राजराय बापू पाटिल एस0एस0के0 लि0, राजरायमनगर, पो0 सखराले, ता0 वाल्वा, जिला सांगली-415409	108.04
58	15601 विश्वास	विश्वास एस0एस0के0 लि0, यशवंतनगर, पो0 चिखाली, ता0 सिराला, जिला सांगली-415408	108.86
59	15701 हुतात्मा	हुतात्मा किसान अहीर एस0एस0के0 लि0, वाल्वे, जिला सांगली-416413	112.14
60	15801 अतपडी	मानगंगा सहकारी साखर कारखाना लि0, सोनारसिद्धनगर अतपडी, जिला सांगली	94.92
61	15901 नेगेवाडी	यशवंत एस0एस0के0 लि0, नेगेवाडी, ता0 खानापुर, जिला सांगली	93.28
62	16001 महाकाली	महाकाली एस0एस0के0 लि0, पो0आ0-राजारम्बापूरनगर ता0-कवाथे, जिला सांगली	94.92
63	16101 वास्ना	श्री वास्ना एस0एस0के0 लि0, पो0आ0-वारनानगर, तालुक-तनहाली, जिला कोल्हापुर-416113	109.68
64	16201 इचलकरंजी	श्री पंचगंगा एस0एस0के0 लि0, गंगानगर, इचलकरंजी, जिला कोल्हापुर-416115	103.12
65	16301 कुंभी कसारी	कुंभी कसारी एस0एस0के0 लि0, कुंदीतरे, ता0 कारवीर, जिला कोल्हापुर-416201	111.32
66	16401 बिंदरी	श्री दूधगंगा वेदगंगा एस0एस0के0 लि0, बिंदरी, पो0आ0-सौनीनगर, ता0 कागल, जिला कोल्हापुर-416208	108.86
67	16501 भोगवती	श्री भोगवती एस0एस0के0 लि0, शाहूनगर, पो0 पशेते, जिला कोल्हापुर-416103	111.32
68	16601 शिरोल	श्री दत्ता एस0एस0के0 लि0, शिरोल, जिला कोल्हापुर-416103	108.04
69	16701 दौलत	दौलत शेतकारी एस0एस0के0 लि0, पो0आ0-हलकारनी, ता0 चंडगाड, जिला कोल्हापुर-416507	101.48
70	16801 गांधीगलाज	गांधीगलाज ता0 एस0एस0के0 लि0, गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर-416502	100.66
71	16901 कागल	श्री छत्रपति शाहू एस0एस0के0 लि0, कागल, जिला कोल्हापुर-416216	113.78
72	17001 असरुले	श्री दत्ता एस0एस0के0 लि0, असरुले, ता0 पन्हाला, जिला कोल्हापुर-416201	96.56
73	17201 हुपारी	जवाहर शेतकारी एस0एस0के0 लि0, हुपारी, ता0 हतकांगले, जिला कोल्हापुर-416203	104.76
74	17901 फल्टन	न्यू फल्टन शुगर वर्क्स लि0, ता0 फल्टन, पो0आ0-शाखरवाडी, जिला सतारा-415522	76.06
75	18001 कोल्हापुर	दि कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लि0, कसाबा भवाडा, जिला कोल्हापुर-416001	107.22
76	33601 तसगांव	तसगांव ता0 एस0एस0के0 लि0, तसगांव(त्रुची फाटा) पो0 त्रुची ता0 तसगांव, जिला सांगली	*
77	35901 जेऊर	आदीनाथ एस0एस0के0 लि0, शेलगांव-बलवानी, पो0आ0-जेऊर-413202, तह0 करमाला, जिला शोलापुर	100.66
78	38101 सुकाले	अकोला जिला एस0एस0के0 लि0, सुकाले, जिला अकोला	87.54
79	38401 अजारा	अजारा शेतकारी एस0एस0के0 लि0, पो0- जी0 अवासे ता0, अजारा, जिला कोल्हापुर	100.66
80	38801 कोरेगांव	जरनदेश्वर एस0एस0के0 लि0, जरनदेश्वर, धिमनगांव, ता0 कोरेगांव, जिला सतारा	89.18
81	39401 तिप्पेहाली	जठ तालुक शेतकारी एस0एस0के0 लि0, तिप्पेहाली जठ-416404, ता0 जठ, जिला सांगली	85.08

1	2	3	4
82	46001 वांगी	सोनहीस एस0एस0के0 लि0, वांगी, ता0 खानापुर, जिला सांगली	103.12
83	46601 उयगांव	डोंगासय सागरेस्वर शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लि0, उयगांव, ता0 खानापुर, जिला सांगली	99.02
84	50801 हमीदवाडे	कागल ता0 एस0एस0के0 लि0, हमीदवाडे कोळालगे, ता0 कागल, जिला कोल्हापुर	105.58
85	51001 कोणारेड	मिनाईदेवी एस0एस0के0 लि0, कोणारेड, ता0 शिचला, जिला सांगली	94.10
86	52006 सेवालेवाडी	उयत एस0एस0के0 लि0, सेवालेवाडी, तालुक कराड, जिला सतारा	90.82
87	52501 नसन्दे	हस्द एस0एस0के0 लि0, नसन्दे, तालुक हथकंगाले, जिला कोल्हापुर	*
88	18101 गंगापुर	गंगापुर एस0एस0के0 लि0, पो0 रघुनाथनगर, जिला औरंगाबाद-431110	*
88	18201 सिल्लोड	शिंदेस्वर एस0एस0के0 लि0, मानिकनगर, ता0-सिल्लोड, सिलोड, जिला औरंगाबाद-431135	94.92
90	18301 कन्नड	दि कन्नड एस0एस0के0 लि0, कन्नड, जिला औरंगाबाद-431103	*
91	18401 परसोडा	दि विनायक एस0एस0के0 लि0, परसोडा, ता0 वैजापुर, जिला औरंगाबाद-123703	*
92	186501 पैधन	श्री संत एकनाथ एस0एस0के0 लि0, पैधन, जिला औरंगाबाद-431106	*
93	18601 तेस्ना	तेस्ना शेतकारी एस0एस0के0 लि0, तेस्नानगर, ता0 धोकी, जिला उस्मानाबाद-413516	98.20
94	18701 नलदुर्ग	तुलजा भवानी शेतकारी एस0एस0के0 लि0, नलदुर्ग, ता0 तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद	80.16
95	18801 कलाम्बर	कलाम्बर विभाग एस0एस0के0 लि0, कलाम्बर पो0 गांधीनगर, ता0-कंधार, जिला नांदेड	*
96	18901 शंकरनगर	गोदावरी मनार एस0एस0के0 लि0, शंकरनगर, पो0आ0-समतीर्थ, ता0-बिलासी, जिला नांदेड	*
97	19001 पंजाराखान	श्री पंजाराखान एस0एस0के0 लि0, भादने, ता0 सकरी, जिला धूलिया-424304	*
98	19101 सतपुडा	श्री सतपुडा तापी परिसर एस0एस0के0 लि0, पो0आ0-पुरुषोत्तमनगर, ता0 सह्याद्री, जिला धूलिया-424304	71.96
99	19201 जीजामाता	जीजामाता एस0एस0के0 लि0, दूसारबीड, ता0 मेखर, जिला बुलढाना-440010	*
100	19301 पुसाड	वसन्त एस0एस0के0 लि0, पुसाड, जिला यवतमाल-415201	97.38
101	19501 पठरी	दि गोदावरी दूधाना एस0एस0के0 लि0, देवनंदा, पो0 व ता0 पठरी जिला पारभणी	86.72
102	19601 बासमथनगर	पूर्णा एस0एस0के0 लि0, बासमथनगर, जिला पारभणी-431512	92.46
103	19701 अम्बाजोगई	दि आम्बाजोगई एस0एस0के0 लि0, पो0 अम्बा साखर, ता0 अम्बाजोगई, जिला बीड-431523	97.38
104	19801 गेवराई	जय भवानी एस0एस0के0 लि0, गेवराई, जिला बीड-431127	92.46
105	19901 काडा	काडा एस0एस0के0 लि0, पो0 काडा ता0 अशति, जिला बीड-414202	78.52
106	20001 गजानन	गजानन को0 शुगर फैक्ट्री लि0, सोनाजीनगर, स्थान ता0 और पो0- राहुरी, जिला बीड-431122	90.82
107	20201 फैजपुर	मधुकर एस0एस0के0 लि0, पो0 फैजपुर, जिला जलगांव-425503	93.28

1	2	3	4
108	20301 भोरस	बेलगंगा एस0एस0के0 लि0, ता0 चालीसगांव, जिला जलगांव (भोरस)-424403	*
109	20601 शिरपुर	शिरपुर शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लि0, दाहीवाड, ता0 शिरपुर, जिला धुले-425405	87.54
110	20601 समर्थ	समर्थ एस0एस0के0 लि0, अंकुशनगर पोस्ट, वादीगोंद्री तालुक, महालाला, ता0 अम्बाड, जिला जालना	100.66
111	20701 जालना	जालना एस0एस0के0 लि0, गांव रामनगर, तह0 व जिला जालना	*
112	20801 नालेगांव	जय जवान जय किसान एस0एस0के0 लि0, नालेगांव, ता0 अहमदपुर, जिला लातूर-413524	90.82
113	20901 मंजारा	मंजारा शेतकारी एस0एस0के0 लि0, ता0 चिचौलीराव, जिला लातूर-413531	107.22
114	21001 किल्लारी	शेतकारी एस0एस0के0 लि0, किल्लारी, जिला उस्मानाबाद-413516	*
115	21201 मौदा	मै0 श्रीराम एस0एस0के0 लि0, बारदेव ता0, मौदा, जिला नागपुर	*
116	21301 जमानी	मै0 महात्मा एस0एस0के0 लि0, जमानी, ता0 सेलू, जिला वर्धा	94.92
117	32001 वाईगंगा	दि वाईगंगा सहकारी साखर कारखाना लि0, तह0 महोली रोड, जिला मंडारा	84.26
118	32201 बालाजी	श्री बालाजी एस0एस0के0 लि0, केशो नागपुर, मसालुपन, ता0 रिसोड, जिला अकोला	*
119	32301 गोलेगांव	श्री शंकर सहकारी साखर कारखाना लि0, फुलेनगर गोलेगांव, तह0 भोकर, जिला नान्देड	85.90
120	35101 फुलंबरी	श्री नामदेव राव बी0 गाकेकर देवगिरी एस0एस0के0 लि0, फुलंबरी, ता0 तथा जिला औरंगाबाद	*
121	35601 माजलगांव	माजलगांव एस0एस0के0 लि0, निथरुड, तह0 माजलगांव, जिला बीड	101.48
122	35801 बोधेगांव	पुशादंतेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि0, मूगसाजी नगर, बोधेगांव, जिला यवतमाल	*
123	36201 मंगरुल	श्री शंकर शेतकारी एस0एस0के0 लि0, पो0आ0-महागांव, गांव मंगरुल, ता0 व जिला यवतमाल	83.44
124	36501 चोपडा	श्री चोपडा एस0एस0के0 लि0, मछले, तह0 चोपडा जिला जलगांव-125107	94.10
125	26901 संत मुक्ताबाई	श्री संत मुक्ताबाई एस0एस0के0 लि0, प्रतिमा नगर (घोदसगांव), ता0 मुक्ताबाई नगर, जिला जलगांव-425306	*
126	37501 शमशेरपुर	पुष्पदंतेश्वर एस0एस0के0 लि0, शमशेरपुर टी0के0 नादुरबार, जिला धुले	99.02
127	37601 कैज	मै0 पदमश्री डाक्टर विठ्ठल राव विखे पाटिल एस0एस0के0 लि0, एट कोठी, तालुक कैज, जिला बीड	83.44
128	37901 सावनेर	रामगणेश गडकडे एस0एस0के0 लि0, सावनेर, जिला नागपुर	*
129	38001 कोंदेश्वर	श्री कोंदेश्वर एस0एस0के0 लि0, रामनगर, ता0 नंदगांव (ख0), फूबगांव, जिला अमरावती	*
130	38501 अम्बुलगा	शिवाजीराव पाटिल निलांगेर एस0एस0के0 लि0, अम्बुलगा(बी0के0), तह0 निलांगा, जिला लातूर	*
131	38901 हिगांगघेट	दि सहकारी महर्षि श्री स्व0 बापूजी देशमुख एस0एस0के0 लि0, वेला, तह0 हिगांगघेट, जिला वर्धा	98.20
132	39101 सूर्य नगर/हदगांव	श्रीमती सूर्यकांता पाटिल जयवंतराव पाटिल सहकारी साखर कारखाना लि0, सूर्य नगर, पो0 और ता0 हदगांव, जिला नांदेड	92.46

1	2	3	4
133	39201 लोहगांव	नरसिम्हा एस0एस0के0 लि0, लोहगांव, ता0, व जिला पारमनी-451401	*
134	39301 बिलोली	जय अम्बिका एस0एस0के0 लि0, मोहननगर, कुन्दूर वाया-नायगांव, ता0 बिलोली, जिला नांदेड़	84.26
135	39701 उजाना	बासाघाट शेतकारी एस0एस0के0 लि0, उजाना, तह0 अहमदपुर, जिला लातूर	*
136	39801 विखाली	पुष्पावती एस0एस0के0 लि0, स्थान विखाली, ता0 पुसाड, जिला यवतमाल	*
137	39901 अकालकोट	मै0 इंद्र एस0एस0के0 लि0, अकालकोट, जिला शोलापुर, महाराष्ट्र	90.00
138	40101 मुदखेड़	श्री भाऊराव चौहान एस0एस0के0 लि0, लक्ष्मीनगर, देवगांव-येलेगांव, जिला नानदेड़	96.56
139	46401 सिकोरा बाजार	श्रीरामेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि0, रावसाहेब नगर, पो0 सिकोरा बाजार, तालुक मोकारन, जिला जालना	92.46
140	46801 मुरुम	श्री विठ्ठल सहकारी शक्कर कारखाना लि0, मुरुम, तालुक ओमरगा, जिला उस्मानाबाद	*
141	49601 भलवानी	चन्द्रभागा एस0एस0के0 लि0, भलवानी, ता0 पंढरपुर, जिला शोलापुर-413304	97.38
142	49701 ज्वाला बाजार	बाराशिव हनुमान एस0एस0के0 लि0, ज्वालाबाजार, ता0 बासमतनगर, जिला पारमनी	90.82
143	50101 पंगारी	मै0 वैद्यनाथ एस0एस0के0 लि0, पंगारी, ता0 पारली, जिला बीड-431515	103.12
144	50701 रंजानी	नेशनल शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि0, रंजानी, ता0 कल्लाम्ब, जिला उस्मानाबाद	105.58
145	51101 गंगामाई	गंगामाई शुगर इंडस्ट्रीज लि0, घाटनंदा, ता0 सिलोड, जिला औरंगाबाद	80.98
146	51401 द्वारकाधीश	द्वारकाधीश साखर कारखाना लि0, साबरे पो0आ0 तहाराबाद, ता0 बगलान, जिला नासिक	92.46
147	52005 अनुराधा	अनुराधा शुगर मिल्स लि0, श्रीमुनराज, महाराजनगर, तालुक वारु (धाड़), जिला बुलदाना	82.62
148	52007 पिम्पलगांव	मै0 छत्रपति सांभाजी राजे शक्कर उद्योग लि0, दीनदयालनगर, छित्तेपिम्पल गांव, तालुक और जिला औरंगाबाद	94.10
149	52401 पवारवाडी	जय महेश शुगर इंडस्ट्रीज लि0, पवारवाडी, तालुक माजलगांव, जिला बीड	89.18
150	52009 कासेगांव	श्री बाबा साहेब अम्बेडकर एस0एस0के0 लि0, कासेगांव, जिला उस्मानाबाद	98.20
151	52003 निविले	विकास एस0एस0के0 लि0, वैशालीनगर, निविले तालुक और जिला लातूर	*
152	52201 योगेश्वरी	योगेश्वरी शुगर इंडस्ट्रीज लि0, लक्ष्मीनगर, स्थान लिम्बा, तालुक पठारी, जिला पारमनी	105.58
153	51301 पनगाँव	पन्नाश्वर शुगर मिल्स लि0, पनगाँव, ता0-सेगपुर, जिला-लातूर	99.02
पांडिचेरी			
1.	31001 पांडिचेरी	दि पांडिचेरी कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, स्थान लिंगारडेपालायम, मांडिपट कोमुने	*
2.	31101 न्यू होरिजन	न्यू होरिजन शुगर मिल्स प्रा0 लि0, संगरूर(अनियुर), पो0आ0 कांडामंगलम, जिला पांडिचेरी	*
पंजाब			
1.	00101 गुरदासपुर	गुरदासपुर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, (पंजाब), जिला गुरदासपुर	84.26

1	2	3	4
2.	00102 जीरा	जीरा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, जीरा-142047, जिला फिरोजपुर	*
3.	00201 बटाला	दि बटाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, बटाला-143505, जिला गुरासपुर	*
4.	00301 फाजिल्का	फाजिल्का कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, फाजिल्का-152123, जिला फिरोजपुर	85.90
5.	00401 मोरिन्डा	दि मोरिन्डा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, मोरिन्डा-140101, जिला रोपड़	*
6.	00501 भोगपुर	दि भोगपुर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, भोगपुर-144201, जिला जलंधर	85.90
7.	00601 नवांशहर	दि दोआबा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, नवांशहर-144514, जिला नवांशहर	76.88
8.	00701 पटियाला	पटियाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, गांव राखरा, जिला पटियाला-147001	74.42
9.	00801 बुढेवाल	बुढेवाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, गांव+पो० बुढेवाल-141112, रोसाहा, तहसील समराला, जिला लुधियाना	*
10.	00901 धुरी	भगवानपुरा शुगर मिल्स लि०, धुरी, जिला संगरूर	*
11.	01001 फगवाड़ा	ओसवाल एग्रो मिल्स लि०, जी०टी० रोड, फगवाड़ा-144401, जिला कपूरथला	73.60
12.	31601 सेरोन	तरन तारण कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, सेरोन, तहसील तरण तारण, जिला अमृतसर-148111	*
13.	31901 नकोदर	नकोदर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, नकोदर, जिला जलंधर	*
14.	33201 जगरांव	दि जगरांव कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० जगरांव, हाथूर कमालपुर, जिला लुधियाना	*
15.	33501 अजनाला	दि अजनाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, भलापिंड, तहसील अजनाला-143102, जिला अमृतसर	77.70
16.	33701 फरीदकोट	दि फरीदकोट कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, रोड़ी, छतसिंहवाला, पो०आ०+जिला फरीदकोट-151203	*
17.	34201 मुकेरियां	ओसवाल शुगरर्स लि०, मुकेरियां-144221, जिला होशियारपुर	*
18.	36001 बाबा बकाला	राणा शुगरर्स लि०, गांव बातुर बकाला, तालुका बाबा बकाला-143202, जिला अमृतसर	*
19.	42001 दसुया	दि पंजाब स्टेट फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, तहसील दसुया, जिला होशियारपुर	85.90
20.	42201 पतरान	पिक्काडिली शुगरर्स एंड एलायड इंडस्ट्रीज लि०, पतरान-147105, तहसील समाना, जिला पटियाला	*
21.	42301 अमलोह	नाहर शुगरर्स एंड एलायड इंडस्ट्रीज लि०, अमलोह-147201, तहसील नाभा, जिला पटियाला	81.80
22.	51601 मालीत	मार्कफेड शुगर एंड एलायड इंडस्ट्रीज, मालीत, जिला मुक्तसर	*

1	2	3	4
राजस्थान			
1.	01901 श्रीगंगानगर	दि गंगानगर शुगर मिल्स लि०, श्रीगंगानगर-355001, जिला गंगानगर	*
तमिलनाडु			
1.	25802 पुगालूर	नवभारत फेरो एलॉयज लि०, पो०आ० पुगालूर शुगर फैक्ट्री, जिला तिरुचिरापल्ली	*
2.	28602 लालगुडी	कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लि०, कट्टूर, लालगुडी, जिला तिरुचिरापल्ली	79.34
3.	28901 थंजावुर	अरिन्नर अन्ना शुगर मिल्स लि०, कुरुंगुलम, जिला थंजावुर	74.42
4.	28902 पेराम्बलूर	पेराम्बलूर शुगर मिल्स लि०, ऐराय्युर, तालुका पेराम्बलूर, जिला तिरुचिरापल्ली	79.34
5.	28903 मदुरै	मदुरा शुगर्स, (ए तमिलनाडु शुगर कोरपोरेशन लि०), पांडियाराजापुरम, जिला मदुरै	71.14
6.	29001 माइलादुथरै	नाडिपिस्सई पुलावर के०आर० माइलादुथरै जिला थंजावुर	70.32
7.	29101 अम्बुर	दि अम्बुर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, वाडापुडुपेट, अम्बुर, जिला नार्थ अरकाट	*
8.	29201 वेल्लौर	दि वेल्लौर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, अमुन्डी, पो०आ० वेल्लौर शुगर मिल्स, जिला नार्थ अरकाट	*
9.	29301 थिरुमात्तूर	थिरुमात्तूर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, कोवांडपट्टी, गांव वाणीम्बाडी तालुक, जिला नार्थ अरकाट	83.44
10.	29401 कलाकुरिची	कलाकुरिची कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० मूंगीथूरीपट्टु, गांव वाणीम्बाडी तालुक, जिला नार्थ अरकाट	77.70
11.	29402 काचिरायापालायम	दि कलाकुरिची-II कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, काचिरायापालायम, ता० कलाकुरिची, जि० विल्लुपुरम आर०पी०	79.34
12.	29501 उलुंडरपेट	चेंगलरायन कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पेरियासेवलई, उलुंडरपेट ता०, जिला साऊथ अरकाट	76.06
13.	29601 मुदुरातक्कम	दि मुदुरातक्कम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पाञ्चलम, जिला चेंगलरायपट्टु	*
14.	29701 तिरुत्तनी	तिरुत्तनी कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, थिरुवनलांगुडु, पो०आ० तिरुत्तनी, जिला चेंगलपट्टु	69.50
15.	29801 सलेम	दि सलेम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, मोहनुर, जिला सलेम	*
16.	29901 धर्मपुरी	धर्मपुरी जिला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पालाकोड-636808, जिला धर्मपुरी	95.74
17.	30001 अमरावती	अमरावती कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, कृष्णापुरम, जिला कोयम्बतूर	*
18.	30101 अलंगानल्लूर	दि नेशनल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, मेदुपट्टी वाया अलंगानल्लूर, जिला मदुरै	80.16

1	2	3	4
19.	30201 थिरुअरुन	दि थिरुअरुन शुगर्स लि०, कोलुमांगुडडी गांव पेरालम/अगाराथिरुमलम फिरका में नानीलम तालुक, नागाई क्वेद-ई-मिलेठ जिला	*
20.	30202 थिरुमांडलकुडी	थिरुअरुन शुगर्स लि०, युनिट: थिरुमांडलकुडी, पापानासम, जिला थंजावूर	75.24
21.	30301 कावेरी	कावेरी शुगर्स एंड कैमीकल्स लि०, पेटायवयताली, जिला- तिरुचिरापल्ली	80.98
22.	30401 नेल्लीकुप्पम	ई.आई.डी.पैरी (इंडिया) लि०, नैल्लीकुप्पम, जिला- साउथ अरकाट	73.60
23.	30501 वेल्लीपुरम	दि साउथ इंडिया शुगर्स लि०, मुंडियापुक्कम, गांव विल्लुपुरम, जिला साउथ अरकाट	82.62
24.	30601 अम्बिका	श्री अम्बिका शुगर्स लि०, पेन्नादम, जिला साउथ अरकाट	75.24
25.	30602 कोत्तूर	श्री अम्बिका शुगर्स लि०, कोत्तूर, टी०के० थीरुवेदमथूर, जिला थंजावूर	73.60
26.	30701 पोन्नी	पोन्नी शुगर्स एंड कैमीकल्स लि०, पाल्लीपलायम, ता० तिरुवेन्गोड, जिला सलेम	91.64
27.	30801 शक्ति	दि शक्ति शुगर्स लि०, शक्तिनगर, डाकघर इरोड आर०एम०एस०, जिला- पेरियार	*
28.	30802 शिवगंगा	शक्ति शुगर्स लि०, ता० शिवगंगा, जिला पासुमपन मथुरालिंगम	77.70
29.	30901 बन्नारी अम्मान	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि०, गांव अलाथुकोम्बई, सत्यामंगलम, जिला पेरियार	90.00
30.	32601 घरानी	घरानी शुगर्स एंड कैमीकल्स लि०, घरानीनगर वासुदेवानालुर, ता० शिवगिरी, जिला थिरुनेलवेली	76.06
31.	32603 पोलुर	घरानी शुगर्स एंड कैमीकल्स लि०, गांव कराईपून्डी, ता० पोलुर, जिला थिरुवन्नामलाई शंभुवारायर	77.70
32.	32801 राजश्री	राजश्री शुगर्स एंड कैमीकल्स लि०, पेरियाकुलम, जिला- मदुरै	86.72
33.	33001 सेथियाथोपे	एम.आर.कृष्णामूर्ति कोप० शुगर मिल्स लि०, सेथियाथोपे तह० चिदम्बरम, जि० साउथ अरकाट	71.96
34.	33401 चेय्यार	तमिलनाडु कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, थिरुवाट्टीपुरम, चेय्यार/वांडेवाश, जिला नार्थ अरकाट	73.60
35.	35001 अलापुरम	सुब्रमणिय शिवा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, अलापुरम, तह० हारूर, जिला धर्मपुरी	85.90
36.	43501 प्लायसी-वरम	एस०वी० शुगर मिल्स लि०, प्लायसीवरम, वालजाबाद फिरका, जिला चेंगलपट्टूर एम०जी०आर०	75.24
37.	50501 अरांथागी	ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लि०, पुडुकोट्टई शुगर फैक्ट्री, ता० अरनंतंगी, जिला- पुडुकोट्टई, कुरुम्बुर-614622	*
38.	51801 अरुणाचलम	अरुणाचलम शुगर मिल्स लि०, मालापमबडी गांव, ता० छीरुवनमलै ता० और जिला	*

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
1.	02201 मोहिउद्दीनपुर	दि उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, यूनिट-मोहिउद्दीनपुर-201205, जिला-मेरठ	78.52
2.	02202 सकौतीटांडा	दि यू०पी० राज्य चीनी निगम लि०, यूनिट सकौती टांडा, पो०आ० सकौतीटांडा, जिला मेरठ-250223	78.52
3.	02204 बुलंदशहर	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, पन्नीनगर, पो०आ० बुलंदशहर-203001, जिला-बुलंदशहर	71.96
4.	02205 सहारनपुर	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, यूनिट-सहारनपुर, पो०आ० सहारनपुर-247001 जिला-सहारनपुर	*
5.	02206 रोहनकलां	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, पो०आ० रोहनकलां, जिला मुजफ्फरनगर-251202	73.60
6.	02301 बागपत	दि बागपत सहकारी शुगर मिल्स लि०, पो०आ० बागपत-250609, जिला-मेरठ	78.52
7.	02401 रमाला	रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो०आ० रमाला-250617, जिला-मेरठ	78.52
8.	02501 अनूपशहर	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, अनूपशहर, पो०आ० जहांगीराबाबा-202394 जिला-बुलंदशहर	76.88
9.	02601 सरसावां	किसान सहकारी चीनी फैक्ट्री लि०, पो०आ० सरसावां, जिला सहारनपुर-247332	*
10.	02701 ननौता	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो०आ० ननौता, जिला सहारनपुर-274524	77.70
11.	02801 मोरना	दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, मोरना, तहसील-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर-251316	79.34
12.	02901 दौराला	दौराला शुगर वर्क्स, पो०आ० दौराला, जिला-मेरठ-250401	*
13.	02902 मवाना	मवाना शुगर वर्क्स, पो०आ० मवाना, जिला-मेरठ-250401	83.44
14.	0300 देवबंद	गंगेश्वर लि०, पो०आ० देवबंद, जिला-सहारनपुर-247554	81.80
15.	03301 खतौली	दि त्रिवेणी इंजिनियरिंग वर्क्स लि०, शुगर यूनिट दि अपर इंडिया शुगर मिल्स, पो०आ० खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर-251203	84.26
16.	03401 मंसूरपुर	मंसूरपुर शुगर मिल्स लि०, पो०आ० मंसूरपुर, जिला-मुजफ्फरनगर-251203	77.70
17.	03501 शामली	दि अपर ग्रेआब शुगर मिल्स लि०, शामली, जिला-मुजफ्फरनगर-247776	86.72
18.	03601 मोदीनगर	दि मोदी इंडस्ट्रीज लि०, पो०आ० मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद-201204	*

1	2	3	4
19.	03602 मलकपुर	एस बी ई सी शुगर लि., मलकपुर लोयन गांव, तहसील बझीत, जिला बागपत-250611	*
20.	03701 सिम्मावली	दि सिम्मावली शुगर मिल्स लि0, पो0आ0 सिम्मावली, जिला गाजियाबाद-245207	83.44
21.	35201 तितावी	सेल लि0, तितावी, जिला मुजफ्फरनगर	87.54
22.	36301 अगौता	विलार्ड इंडिया लि0, शुगर डिवीजन (अगौता शुगर एंड केमिकल्स) गांव भांसोडिया, अगौता, जिला बुलंदशहर	79.34
23.	47701 टोडापुर	शाकुम्बरी शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि0, स्थान टोडापुर(राघर), जिला सहारनपुर-247001	80.16
24.	48601 टिकौला	टिकौला शुगर मिल्स लि., गांव टिकौला, तहसील जनसाथ, जिला मुजफ्फरनगर	*
25.	48701 उन	मै0 कस्तुरी शुगरर्स मिल्स, उन ता0 केशन, जिला मुजफ्फरनगर	*
26.	50601 नया बांस	दया शुगर, नया बांस, तहसील गागलहेड़ी, जिला सहारनपुर	*
27.	02208 बिजनौर	उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, यूनिट बिजनौर, जिला बिजनौर-246701	72.78
28.	02209 अमरोहा	उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, पो0आ0 अमरोहा, जिला मुरादाबाद-244221	72.78
29.	03801 छाता	छाता शुगर कम्पनी लि0, पो0 छाता जिला मथुरा-281401	69.50
30.	03901 चांदपुर	उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 पो0आ0 चांदपुर, जिला बिजनौर-246725	*
31.	04201 गजरौला	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, गजरौला हासनपुर, जिला मुरादाबाद	76.88
32.	04301 बिलासपुर	रुद्रविलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, पो0 बिलासपुर, जिला रामपुर-244921	71.14
33.	04801 हरदुआगंज	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, साथा, पो0 साथा, जिला अलीगढ़-202221	76.06.
34.	04901 बिसालपुर	बिसालपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, पो0 बिसालपुर, जिला पीलीभीत-262201	71.14
35.	05001 मझौला	दि किसान सहकारी चीनी फैक्ट्री लि0, पो0 मझौला, जिला पीलीभीत-262302	78.52
36.	05101 पूरनपुर	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, तह0 पूरनपुर, जिला पीलीभीत	76.06
37.	05201 कायमगंज	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, पो0 कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद-207502	*
38.	05301 बदायूं	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, पो0 बदायूं, जिला बदायूं	71.14

1	2	3	4
39.	05401 तिलहर	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो० तिलहर, जिला शाहजहांपुर	73.60
40.	05501 बिलरायां	दि सरयू सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो० बिलरायां, जिला लखीमपुर खीरी	72.78
41.	05601 सम्पूर्णनगर	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सम्पूर्णनगर, तह० निगाशन, जिला लखीमपुर खीरी	71.96
42.	05701 सेमीखेड़ा	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सेमीखेड़ा, जिला व तह० बरेली-243001	73.60
43.	05801 धामपुर	दि धामपुर शुगर मिल्स लि०, पो० धामपुर, जिला बिजनौर-246261	*
44.	05803 असमौली	धामपुर शुगर मिल्स लि., असमौली, तहसील सम्भल, जिला मुरादाबाद	76.06
45.	05901 सिहोरा	अपर गंगेज शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि०, पो० सिहोरा, जिला बिजनौर-246746	77.70
46.	06102 पीलीभीत	एल०एच० शुगर फैक्ट्रीज लि०, पो०आ० पीलीभीत, जिला पीलीभीत-262001	78.52
47.	06201 रोजा	रोजा शुगर वर्क्स लि०, (प्रो० अवध शुगर मिल्स लि०) पो०आ० रोजा, जिला शाहजहांपुर-242406	79.34
48.	06301 गोला	बजाज हिन्दुस्तान लि०, पो०आ० गोलागोकर्नाथ, जिला लखीमपुर खीरी-262802	*
49.	04101 ऐरा	दि गोविन्द शुगर मिल्स लि०, पो०आ० ऐरा इस्टेट, जिला लखीमपुर खीरी-262722	76.06
50.	06501 पलियाकलां	बजाज हिन्दुस्तान लि०, पो०आ० पलियाकलां, जिला लखीमपुर खीरी-262902	*
51.	06601 बहेरी	दि केशर इंटरप्राइजेज लि०, पो०आ० बहेरी, जिला बरेली-243201	81.80
52.	06701 नेवोली	दि नेवोली शुगर फैक्ट्री, मनपूर्णागरिया, पो.आ. नेवोली, जिला एटा-207402	*
53.	06802 हरगांव	दि अवध शुगर मिल्स लि०, पो०आ० हरगांव, जिला सीतापुर-261121	81.80
54.	31701 पवायां	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पवायां, जिला शाहजहांपुर	69.50
55.	31801 घाटमपुर	घाटमपुर शुगर कं० लि०, तह० घाटमपुर, जिला कानपुर	72.78
56.	32901 नजीबाबाद	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, स्नेह रोड, नजीबाबाद, जिला बिजनौर-246763	80.16
57.	34501 धनौरा	ओसवाल एग्री मिल्स लि., धनौरा, तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद	76.06
58.	36101 वीनस	वीनस शुगर लि०, शिव शक्ति नगर, मझौली, (बरातारा), तह० सम्भनाल, जिला मुरादाबाद	*

1	2	3	4
59.	47501 जे.के.शुगर	जे के इंडस्ट्रीज लि., पोस्ट मीरगंज, जिला बरेली	76.88
60.	47801 द्वारिकेश	द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि., बुंदकी, जिला बिजनौर	84.26
61.	48301 जे बी गंज (अजबपुर)	घाघरा शुगर लि., गोमती शुगर मिल्स यूनिट, अजबपुर गांव, जिला लखीमपुर खीरी-261505	86.72
62.	48401 अगवानपुर	दीवान शुगर्स लि., अगवानपुर जिला मुरादाबाद	73.60
63.	48501 रूमापुर	किटप्लाई इंडस्ट्रीज लि0, शुगर यूनिट: रूमापुर, तह0 शाहबाद, जिला-हरदोई	*
64.	02215 बुढवाल	दि उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, यूनिट-बुढवाल, पो0आ0 बुढवाल, जिला बाराबंकी-225202	69.50
65.	02216 जारवाल	दि उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, यूनिट जारवाल रोड, पो0आ0 जारवाल रोड, जिला-बहराइच	*
66.	02217 पिपराइच	उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, पो0आ0 पिपराइच, (यूनिट-पिपराइच), जिला-गोरखपुर	*
67.	02219 सिसवाबाजार	उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, पो0आ0 सिसवाबाजार(यूनिट-सिसवाबाजार), जिला गोरखपुर-273253	69.50
68.	02220 खाड्डा	उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, यूनिट-खाड्डा, पो0आ0 राजाबाजार, खाड्डा, जिला पडरौना-273415	70.32
69.	02221 लक्ष्मीगंज	उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, यूनिट लक्ष्मीगंज, पो0आ0 लक्ष्मीगंज, जिला पडरौना-274308	69.50
70.	02222 रामकोला(सहकारी)	दि उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, यूनिट-रामकोला, पो0आ0 रामकोला, जिला पडरौना-274701	69.50
71.	02223 भटनी	दि उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, यूनिट-भटनी, पो0आ0 भटनी, जिला-देवरिया-274701	*
72.	03002 रामकोला	गंगेश्वर लि0, यूनिट रामकोला, पो0 रामकोला, जिला कुशीनगर	73.60
73.	03702 छिलवारिया	छिलवारिया शुगर एंड केमिकल्स लि., पोस्ट छिलवारिया, जिला बहराइच	76.88
74.	05802 रौजागांव	धामपुर शुगर मिल्स लि0, यूनिट धामपुर, रौजागांव-225402, तह0 रामस्नेही घाट, जिला बाराबंकी	78.52
75.	06902 दरियापुर	नंदगंज सिहोरी शुगर कं0 लि0, यूनिट दरियापुर, पो0 दरियापुर, जिला रायबरेली-229001	73.60
76.	07001 नानपाड़ा	श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, नानपाड़ा, जिला बहराइच	75.24
77.	07101 काशी	काशी सहकारी चीनी मिल्स लि0, पो0 उरई, जिला वाराणसी-221301	69.50

1	2	3	4
78.	07201 रसर	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पोस्ट रसर, जिला बलिया-221712	69.50
79.	07301 साथियां	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो० साथियां, जिला आजमगढ़-276001	*
80.	07401 घोसी	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो० घोसी, जिला मऊ	69.50
81.	07501 सुल्तानपुर	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर-208001	72.78
82.	07601 महमूदाबाद	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, महमूदाबाद, जिला सीतापुर-261203	73.60
83.	07901 कैप्टनगंज	दि कनौड़िया शुगर एंड जनरल मै० कं० लि०, पो० कैप्टनगंज, जिला देवरिया-274303	73.60
84.	08101 सिओराही	दि यूनाइटेड प्रोवीनशस शुगर कम्पनी लि०, पो०-सिओराही, जि०-पडरौना-274406	*
85.	08201 बैतालपुर	उ०प्र०राज्य शुगर कोरपोरेशन लि०, यूनिट बैतालपुर, पो०-बैतालपुर, जिला देवरिया-274406	*
86.	08301 देवरिया	उ०प्र०राज्य शुगर कोरपोरेशन लि०, यूनिट देवरिया, पो०-देवरिया, जि०-देवरिया-274001	*
87.	08401 प्रतापपुर	दि प्रताप शुगर एवं इंडस्ट्री लि०, पो०-प्रतापपुर, जि०-देवरिया 274703	77.70
88.	08501 वाल्टरगंज	गोविन्दनगर शुगर लि०, पो०-वाल्टरगंज, जि०-बस्ती-272182	*
89.	08502 बस्ती	दि बस्ती शुगर मिल्स कं०लि०, पो० एवं जि०-बस्ती-272003	*
90.	08601 बिस्वान	दि सेक्सरिया बिस्वान शुगर फैक्ट्री लि०, पो०-बिस्वान, जि०-सीतापुर-261201	80.16
91.	08701 स्तना	उ०प्र०राज्य शुगर कोरपोरेशन लि०, यूनिट शाहगंज(स्तना), जि०-जौनपुर-223001	*
92.	08801 कै०एम०शुगर	कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स लि०, पो०-मोतीनगर, जि०-फैजाबाद-224001	74.42
93.	08901 बलरामपुर	बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, पो०-बलरामपुर, जि०-गोण्डा-271201	81.80
94.	09001 तुलसीपुर	बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, तुलसीपुर फैक्ट्री ब्रांच, पो-तुलसीपुर, जि०-गोण्डा-271208	79.34
95.	09201 बभनान	दि बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, पो०-बभनान, जि०-गोण्डा-272161	84.26
96.	37301 गदौरा	जे एच वी शुगर कारपोरेशन लि., गांव गदौरा, तहसील निचलौल, जिला महाराजगंज-273305	77.70
97.	41901 रामगढ़	डालमिया सीमेंट (भारत) लि०, (यूनिट रामगढ़ चीनी मिल्स), रामगढ़, तह०-मिसरीख, जि०-सीतापुर	80.16
98.	47601 ओसवाल ओवरसीज	ओसवाल ओवरसीज लि०, पो०आ० नवाबगंज, जिला बरेली-262406	*

1	2	3	4
99	48001 मैजापुर	इण्डो गोल्फ इंडस्ट्रीज लि०, पो०-मैजापुर, जि०-गोण्डा	71.14
100	50401 कमलापुर	कमलापुर शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि., (पूर्व में मगना एग्रो इंडस्ट्रीज लि.) कमलापुर, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर	76.88
उत्तरांचल			
1.	02207 डोइवाला	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, पो०आ० डोइवाला-240140, जिला-देहरादून	71.96
2.	03101 इकबालपुर	दि महालक्ष्मी शुगर मिल्स कं० लि०, पो०आ० इकबालपुर, जिला-हरिद्वार-247668	76.06
3.	03201 लक्सर	राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स(प्रा०) लि०, पो०आ० लक्सर जंक्शन, जिला-सहारनपुर हरिद्वार	80.98
4.	49201 लिब्ररहेड़ी	एसोसिएटेड शुगर मिल्स लि., लिब्ररहेड़ी, जिला हरिद्वार	82.62
5.	04001 किच्छ	किच्छ शुगर कं० लि०, पो० किच्छ, जिला नैनीताल-262148	78.52
6.	04401 बाजपुर	दि बाजपुर सहकारी चीनी फैक्ट्री लि०, पो० बाजपुर, जिला नैनीताल-262401	75.24
7.	04501 नादेही	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, राजापुर पुनपुर नदेही पो० जासपुर, जिला नैनीताल-244712	81.80
8.	04601 सितारगंज	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, तह० सितारगंज, जिला नैनीताल	75.24
9.	04701 गदरपुर	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो० गदरपुर, जिला नैनीताल	71.14
10	06101 काशीपुर	डी०एस०एम० एग्रो प्रोडक्ट्स लि०, यूनिट डी०एस०एम० शुगर (काशीपुर) पो०आ० काशीपुर, जिला नैनीताल-244713	79.34

* टिप्पणी :- चीनी मौसम 2002-2003 के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य के निर्धारण हेतु चीनी फैक्ट्रियों के संबंध में सूचना आज की तारीख तक प्राप्त नहीं हुई है। चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर अधिसूचित किया जाएगा।

भाग-II

इस भाग के निम्न कॉलम-3 में उल्लिखित चीनी फैक्ट्रियों में पिछले चीनी मौसम (मौसमों) में गन्ने की पिराई नहीं हुई। 30 सितम्बर 2002 को समाप्त होने वाले चीनी वर्ष 2002-2003 के लिए इस भाग के कॉलम-3 में निर्दिष्ट निर्वात कढ़ाह प्रक्रिया की चीनी फैक्ट्रियों के मालिकों अथवा उनके एजेंटों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य उनके कार्य शुरू करने के समय केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

क्रम संख्या	कोड नंबर	फैक्टरी का नाम
1.	2.	3.

आंध्र प्रदेश

1.	23603 मिरयालगुडा	दि निज़ाम शुगर फैक्टरी लि०, पो०आ० मिरयालगुडा, जिला नलगोंडा
2.	24401 पालाकोल	दि पालाकोल कोआपरेटिव शुगर लि०, पूलावेल्ली, पो०आ० पालाकोल जिला वेंस्ट गोदावरी
3.	24801 कुडप्पा	दि कुडप्पा कोआपरेटिव शुगर लि० ता० दौलतपुरम, जिला कुडप्पा-516163
4.	24901 नंदयाल	नंदयाल कोआपरेटिव शुगर लि०, पो. ऑ. पोन्नापुरम नंदयाल जिला करनूल-518503
5.	25001 नागार्जुन	दि नागार्जुन कोआपरेटिव शुगर लि०, पो०आ० गुरुजाला गुंटूर
6.	25701 किरलामपुडी	दि किरलामपुडी शुगर मिल्स लि०, पो०आ० पीलापुरम, जिला पूर्वी गोदावरी-533450

बिहार

1.	08004 मढ़ीच	कायनपोर शुगर वर्क्स लि०, मढ़ीच फैक्टरी ब्रांच, पो. मढ़ीच, जिला सारण
2.	21401 गरील	बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट गरील पो०आ० गरील जिला वैशाली-844118
3.	21402 रेयाम	बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट रेयाम जिला दरभंगा-847237
4.	21403 लोहट	बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, पो०आ० लोहट जिला मधुबनी-847231
5.	21404 सकरी	बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, पो०आ० सकरी जिला मधुबनी-847239
6.	21405 समस्तीपुर	बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, पो०आ० समस्तीपुर जिला समस्तीपुर-848101
7.	21406 बनमंछी	दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, पो०आ० बनमंछी जिला पूर्णिया-854202
8.	21407 लौरिया	बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, पो०आ० लौरिया जिला पश्चिमी चम्पारण-445453
9.	21408 सुगौली	दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, पो०आ० सुगौली जिला पूर्वी चम्पारण-845456
10.	21409 मोतीपुर	बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, पो०आ० मोतीपुर जिला मुजफ्फरपुर-843111
11.	21410 मीरगंज	दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, पो०आ० मीरगंज जिला गोपालगंज-841438
12.	21411 सिवान	दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, पो०आ० सिवान जिला सिवान

1	2	3
13.	21412 न्यू सिवान	दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, पो०आ० न्यू सिवान, जिला सिवान
14.	22001 चनपटिया	चम्पारण शुगर कं. लि०, पो०आ० चंपटिया, जिला वैस्ट चम्पारण
15.	22002 बाराचकिया	चम्पारण शुगर कं. लि०, पो०आ० बाराचकिया, जिला ईस्ट चम्पारण
16.	21413 बिहटा	दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट बिहटा, पो०आ० बिहटा जिला पटना
17.	21414 वारसलीगंज	दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट वारसलीगंज जिला नवादा
18.	21415 गरारु	बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट गरारु पो०आ० गरारु, जिला गया
असम		
1.	22701 चारगोला	अरिहत शुगर लि०, पो०आ० राताबरी, चारगोला, जिला करीमगंज
2.	22801 बरुआबमुनगांव	दि आसाम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० बरुआबमुनगांव, जिला सिबसागर-785610
नागालैंड		
1.	23501 दीमापुर	नागालैंड शुगर मिल्स कं. लि० पो०आ० दीमापुर जिला कोहिमा
उड़ीसा		
1.	23201 रायगढ़	जेपोर शुगर कं. लि०, पो०आ० रायगढ़, जिला कोरापुट-765002
2.	30702 देवगांव	पोनी शुगर एंड केमिकल्स लि., सांबरपल्ली, पो.ऑ. देवगांव, जिला बोलंगीर-767020
3.	32401 नयागढ़	दि कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लि०, (धरनी शुगर एंड केमिकल्स लि० के प्रबंध के अधीन) पो०आ० नयागढ़, जिला पुरी
4.	36401 धर्मगढ़	वैस्टर्न इंडिया शुगर एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०, धर्मगढ़, तहसील धर्मगढ़, जिला कालाहांडी
दक्षिण गुजरात		
1.	35701 अमोद	श्री रेवा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, रेवानगर, स्टेट हाइवे नं० 6, ता० अमोद, जिला भरुच-392110
2.	41201 वीरपुर	श्री बलोड प्रदेश खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, दादरिया ता० बलोड, जिला सुरत-394640
गुजरात (सौराष्ट्र)		
3.	11201 ऊना	श्री ऊना तालुका सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो० ऊना, (सौराष्ट्र), जिला जूनागढ़-362520
4.	11501 पलाज	चारोतर सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, गांव पलाज, तालुका पेटलाड, जिला कैस-388450
5.	11601 धोराजी	श्री सरदार बल्लभ भाई पटेल खांड उद्योग कोआपरेटिव सोसाइटीज लि०, जमनावाड रोड, पो० धोराजी, जिला राजकोट-360110
कर्नाटक		
1.	27201 सुन्दरी	दि काम्पली कोऑप० शुगर फ़ैक्ट्री लि०, पो०आ०-कामपली, जिला बेल्तारी
2.	28201 मुनीराबाद	सलारजंग शुगर मिल्स लि०, पो०आ०-मुनीराबाद, जिला रायचूर
3.	28301 शिमोगा	तुंगभद्रा शुगर वर्क्स प्रा० लि०, पो०आ०-शिमोगा, जिला शिमोगा-577201

1	2	3
केरल		
1.	31201 मन्नाम	द मन्नाम शुगर मिल्स कोऑपरेटिव लि., पो.ऑ. पंडालम, जिला एलेप्पी
2.	31401 तिरुवल्ला	दि द्रावनकोर शुगर एंड कैमीकल्स लि०, वलानजावतम, डाकघर- तिरुवल्ला, जिला-विथिलोन
मध्य प्रदेश		
1.	09701 दल्लीदा	दि जिवाजी राव शुगर क० लि०, दल्लीदा, जिला- मंदसौर-458667
2.	09801 मोहिदपुर	एम०पी० स्टेट इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, डाकघर मोहिदपुर रोड, जिला-उज्जैन
3.	10001 ज्योरा	ज्योरा शुगर मिल्स, ज्योरा, जिला- स्तलाम-457226
महाराष्ट्र		
1	19401 डोंगरकड़ा	मराठवाड़ा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० डोंगरकड़ा, ता० कलामबरी, जिला पारभनी-431701
2	20101 कसोडा	वसंत सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कसोडा, जिला जलगांव-425110
3.	20401 संजय	संजय सहकारी शक्कर कारखाना लि०, इरलडोल धुले सिंदखेड़ा, अमलनेर लि० विजयनगर पो० नवलनगर ता० और जिला धुले-424310
4.	21101 धामनगांव	शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, धामनगांव, ता० चांदपुर चांदपुर रेलवे स्टेशन, जिला अमरावती
5.	38301 सिंदखेड़ा	सिंदखेड़ा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, स्थान देगांव, तह० सिंदखेड़ा, जिला धुलिया
पंजाब		
1.	33301 बुधलाना	दि बुधलाना कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लि०, बुधलाना-151502, तहसील मंशा, जिला भटिंडा
राजस्थान		
1.	02001 केशोरायपाटन	श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि०, केशोरायपाटन-312204, जिला बूंदी
2.	02101 शुपालसागर	दि मेवार शुगर मिल्स लि०, शुपालसागर-312204, जिला चित्तौड़गढ़
उत्तर प्रदेश		
1.	02203 मेरठ	दि उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, मेरठ शहर, जिला मेरठ-250002
2.	02210 रामपुर	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, यूनिट रामपुर, जिला रामपुर-244901
3.	02211 बरेली	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, पो०आ० बरेली, (यूनिट बरेली) जिला बरेली-243406
4.	02212 महोली	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, पो०आ० महोली, (यूनिट महोली) जिला सीतापुर-261141
5.	02213 हरदोई	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, पो०आ० हरदोई, (यूनिट हरदोई) जिला हरदोई-241001
6.	04101 एक्सपेरिमेंटल	दि एक्सपेरिमेंटल शुगर फै०, (राष्ट्रीय चीनी संस्था) पो० कल्याणपुर, जिला कानपुर
7.	06001 राजा का सहसपुर	दि अयुध्या चीनी मिल्स०, पो० राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद-202415
8.	02214 बाराबंकी	दि उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, (यूनिट-बाराबंकी) पो०आ० बाराबंकी, जिला-बाराबंकी-225202

1	2	3
9.	02218 घुघली	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, पो०आ० घुघली, (यूनिट: घुघली), जिला-महाराजगंज-273151
10.	02224 छितौनी	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, पो०आ० छितौनी, जिला पडरौना-273414
11.	02226 मुंडेरवा	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, पो० मुंडेरवा, जिला बस्ती-272178
12.	06901 नंदगंज	नंदगंज सिहोरी शुगर कं० लि०, गांव सिहोरी, पो० नंदगंज, तह० सैदपुर, जिला गाजीपुर-233302
13.	07701 आनंदनगर	स्वदेशी माइनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कं० लि०, पो० आनन्द नगर, जिला महाराजगंज
14.	07702 खलीलाबाद	खलीलाबाद शुगर मिल्स प्रा० लि०, पो० खलीलाबाद, जिला बस्ती-272175
15.	07801 सरदार नगर	सरवराया शुगर मिल्स प्रा० लि०, पो० सरदार नगर, जिला गोरखपुर-273202
16.	08001 पडरौना	कानपुर शुगर वर्क्स लि०, पडरौना फैक्ट्री ब्रांच, पो०-पडरौना, जि०-पडरौना 274304
17.	08002 खतकुईयाँ	कानपुर शुगर वर्क्स लि०, यूनिट खतकुईया, पो०-खतकुईया, जि०-देवरिया-274303
18.	08003 गौरीबाजार	कानपुर शुगर वर्क्स लि०, गौरी फैक्ट्री ब्रांच, पो०-गौरीबाजार, जिला- देवरिया-274202
19.	09101 नवाबगंज	उ०प्र० राज्य शुगर कोरपोरेशन लि०, पो०-शुगर फैक्ट्री, नवाबगंज, जि०-गोण्डा-271303
20.	41701 धुरियापुर	धुरियापुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, हापुड़-गाजपुर, पो०आ० देइदिहा, जिला गोरखपुर

[सं. 3-1/2001-एस.पी.वाई. डी. II/एस.पी.]

संदीप खन्ना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 9th January, 2003

G.S.R. 19(E)/Ess. Com./Sugarcane.— In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966 and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof and in supersession of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution) Order number GSR 821(E) Ess. Com./ Sugarcane dated the 12th December, 2002, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs.69.50 per quintal linked to a basic recovery of 8.5% sugar subject to a premium of Rs.0.82 for every 0.1% point increase in the recovery above that level hereby fixes the price specified in column (4) of Part-I of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 2002-2003 ending the 30th September, 2003, subject to the rebates payable therefor under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

PART- I

Serial number	Code No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in Rupees per quintal
1	2	3	4

ANDHRA PRADESH

1.	23601	The Nizam Sugar Factory Ltd.,	*
	Shakarnagar	P.O.Shakarnagar, District Nizamabad	
2.	23602	The Nizam Sugar Factory Ltd.,	*
	Zaheerabad	P.O. Didgi, Taluka. Zaheerabad, Distt. Medak	
3	23605	Nizam Sugar Factory Ltd.,	69.50
	Metpalli	P.O. Metpalli, District Karimnagar	
4	23608	The Nizam Sugar Factory Ltd.,	*
	Medak	P.O. Mambapalli, Taluka & District Medak	

1	2	3	4
5	23609 Laichayypata	Nizam Sugar Factory Ltd., P.O. Lakshayyapeta, Bobbili Niandal, Distt. Vizianagaram	83.44
6	23701 Nizamabad	The Nizamabad Cooperative Sugar Factory Ltd., Nizamabad, District Nizamabad	89.18
7	23801 Amadavalasa	Amadavalasa Cooperative Agricultural & Industrial Society Ltd., P.O. Amadalvalasa, District Srikakulam	82.62
8	23901 Chodavaram	The Chodavaram Cooperative Sugars Ltd., P.O. Govada, District Visakhapatnam	85.08
9	24001 Anakapalle	Anakapalle Cooperative Agricultural & Industrial Society Ltd., P.O. Anakapalle, District Visakhapatnam	*
10.	24101 Etikoppaka	The Etikoppaka Cooperative Agricultural & Industrial Society Ltd., P.O. Etikoppaka, District Visakhapatnam	83.44
11	24201 Thandava	The Thandava Cooperative Sugars Ltd., P.O. Payakaraopeta, District Visakhapatnam	80.16
12	24301 Vijayarama	Shri Vijayarama Gajapati Cooperative Sugars Ltd., P.O. Korukonda (Bhimasindhi), Tal. Srungavarapukota, , District Visakhapatnam	82.62
13	24501 Bhimadole	West Godavari Cooperative Sugars Ltd., Bhimadole, Taluka Eluru, District West Godavari	84.26
14	24601 Hanuman	Shree Hanuman Cooperative Sugars Ltd., P.O. Veeravalli Hanuman Junction, District Krishna- 524405	*
15	24701 Palair	The Palair Cooperative Sugars Limited, P.O. Rajeshwarapuram, District Khammam-507160	*
16	25101 Tenali	The Nannapanni Vankatrao Cooperative Sugars Ltd., Jampani P.O., Taluk Tenali, District Guntur-522261	72.78
17	25201 Kovur	The Kovur Cooperative Sugar Factory Limited, Kovur Taluk , District Nellore-524005	69.50
18	25301 Chittoor	The Chittoor Cooperative Sugar Ltd., Chittoor, P.O. T. Savatepalli, District Chittoor-517003	74.42
19	25401 Tirupati	Shri Venketashwara Cooperative Sugar Factory Ltd. P.O. Gazula Mandayam (Tirupati), Renigunta, District Chittoor	*
20	25501 Chagallu	V.V.S. Sugars (The Jeypore Sugar Co.Ltd.,) P.O.Chagallu, District West Godavari-534342	93.28
21	25601 Tanuku	The Andhra Sugars Ltd., P.O. Tanuku, District West Godavari-534215	89.18

1	2	3	4
22	25602 Tuduvai	The Andhra Sugars Ltd., Tuduvai, District West Godavari	94.92
23	25801 Samalkot	Nava Bharat Ferro Alloys Ltd., Samalkot, District East Godavari-533440	88.36
24	25901 Chelluru	Shri Sarvaraya Sugars Ltd., P.O. Chelluru, Taluka Ramchandrapuram, District East Godavari-533261	93.28
25	26001 Vuyyuru	The KCP Sugar & Industries Corporation Ltd., P.O. Vuyyuru, District Krishna	85.90
26	26101 Lakshmipuram	The KCP Sugar & Industries Corporation Ltd., Lakshmipuram, District Krishna	76.88
27	34301 Kallur	Shri Kailash Sugars & Chemicals Ltd., Peruvuncha, Teh. Kallur Mandal, District Khammam-507209	80.16
28	34401 Nayudupet	Empee Sugars & Chemicals Ltd., Ayyapapeddipalam, Nayudupet Mandalam, District Nellore-524126	*
29	34901 Kummaranatham	Shree Vaani Sugars & Industries Ltd., Kummaranatham P.O. Punganur-517247, District Chittoor	80.98
30	42601 Nindra	Prudential Mouli Sugars Ltd., P.O. Koppedu, Teh. Nindra Mandal, District Chittoor-517787	73.60
31	43601 Mauranagar	Sudalagunta Sugars Ltd. Katur Post Mauranagar, Butchinaidu Kandriga Mandal, District Chittoor-517644	*
32	43801 G.S.Complex	Gayatri Sugar Complex Ltd. Prabhadiripatnam, Padalakur Mandal, District Nellore	71.14
33	44601 NCS Gayatri	NCS Gayatri Sugar Ltd., TSR Town, 6-3-1090, Raj Bhawan Road	*
34	44701 Sangareddy	Ganapati Sugar Industries Ltd., Kulubgoor, Sangareddy Mandal, District Medak	85.90
35	44901 Varalakshmi	Varalakshmi Sugars Ltd., Sankili Regidl, Amadalavolsa Mandal Distt. Srikakulam	*
BIHAR			
1	21501 Hassanpur	New India Sugar Mills Ltd., P.O. Hassanpur Road, District Samastipur-848205	71.96
2	21601 Bagaha	Bagaha Chini Mills Ltd., P.O. Naraipur, Distt. West Champaran	76.88
3	21701	Harinagar Sugar Mills Ltd.,	76.88

1	2	3	4
4	Harinagar 21801	P.O. Harinagar, Distt. West Champaran-845103 The Oudh Sugar Mills Ltd.,	75.24
5	Narkatiaganj 21901	P.O. Narkatiaganj, District West Champaran-845455 Motilal Padampat Udyog Ltd.,	70.32
6	Majhulia 22101	P.O. Majhulia, District West Champaran Motihari Chini Udyog Ltd.,	*
	Motihari	Leasee of M/s Eastern Sugars Mills Ltd., P.O. Hanuman, Motihari, District East Champaran-845401	
7	22201	Sasa Musa Sugar Works Pvt. Ltd.,	*
	Sasamusa	P.O. Sasa Musa, District Gopalganj	
8	22301	The Vishnu Sugar Mills Ltd.,	71.96
	Gopalganj	Gopalganj, District Gopalganj.	
9	22401	Bharat Sugar Mills Ltd.,	69.50
	Sidhwalia	P.O. Sidhwalia, District Gopalganj	
10	22501	Righa Sugar Co. Ltd.,	73.60
	Righa	P.O. Righa, District Sitamarhi	
ASSAM			
1	22901	Nowgong Cooperative Sugar Mills Ltd.,	*
	Nowgong	Kampur, District Nowgong	
ORISSA			
1	23001	The Aska Cooperative Sugar Industries Ltd.,	73.60
	Aska	Nuagau(Aska), District Ganjam 760001	
2	23101	The Baragarh Cooperative Sugar Mills Limited,	74.42
	Baragarh	(Under the Management of Ponni Sugars & Chemicals Ltd.), P.O. Tora Baragarh, District Sambalpur	
3	30803	Sakthi Sugars Ltd.,	75.24
	Dhenkanal	P.O. Haripur, Village Teh. Dhankanal Sadar, District Dhenkanal	
4	32701	Badamba Cooperative Sugar Industries Ltd.,	75.24
	Badamba	(Under the Management of Sakthi Sugars Ltd.,) Teh. Badambagarh, District Cuttack	
WEST BENGAL			
1	23301	West Bengal Sugar Industries Development	69.50
	Ahmedpur	Corporation Ltd., Ahmedpur, District Birbhum-731201	
2	23401	Khaithan Agro Industries Ltd.,	*
	Plassey	P.O. Plassey, Distt. Nadia-741 157	

1	2	3	4
HARYANA			
1	01101 Rohtak	The Haryana Cooperative Sugar Mills Limited, P.O. Rohtak, District Rohtak-124001	83.44
2	01201 Panipat	The Panipat Cooperative Sugar Mills Limited, P.O. Panipat, District Panipat-132103	78.52
3	01301 Karnal	The Karnal Cooperative Sugar Mills Limited, P.O. Karnal, District Karnal-132001	80.98
4	01401 Sonapat	Sonapat Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Sonapat, District Sonapat-131001	80.98
5	01501 Shahbad	Shahbad Cooperative Sugar Mills Ltd., Shahbad Markhanda, District Kurukshetra-132135	84.26
6	01601 Palwal	The Palwal Cooperative Sugar Mills Limited, Teh. Palwal, District Faridabad-121101	*
7	01701 Jind	The Jind Cooperative Sugar Mills Limited, Teh. & District Jind-126102	78.52
8	01801 Yamunanagar	The Saraswati Sugar Mills P.O. Yamunanagar, District Ambala - 135 001.	87.54
9	33801 Kaithal	The Kaithal Cooperative Sugar Mills Limited, Kaithal (HR), District Kurukshetra-132027	78.52
10	33901 Maham	The Maham Cooperative Sugar Mills Limited, Maham, District Rohtak-124112	80.16
11	34101 Bhuna	The Bhuna Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhuna, Teh. Fatehabad, District Hissar-126008	69.50
12	37701 Naraingarh	Naraingarh Sugar Mills Ltd. Naraingarh, District Ambala	80.98
13	42202 Bhadson	M/s Piccadilly Agro Industries Ltd., Sector-17-A, SCO.40-41 Chandigarh, Village Bhadson Umri Road, Location at Indri, District Karnal	*
14	52001 Sirsa	Chaudhari Devilal Cooperative Sugar Mills Ltd., Vill - Panniwala Mota, District Sirsa.	*
15	42701 Gohana	The Haryana State Federation of Cooperative Sugar Mills Ltd., Gohana, District Sonapat.	*

SOUTH GUJARAT

1	10101 Bardoli	Shri Khedut Sahakari Khand Udyog Mandi Ltd., Sardar Bag, P.O. Bardoli, Distt. Surat - 394 601	95.74
2	10201 Madhi	Shree Madhi Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd.,	91.64

1	2	3	4
3	10301 Chalthan	P.O. Madhi, Distt. Surat-394 340 Shree Chalthan Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., P.O. Chalathan, District Surat – 394 305	93.28
4	10401 Sayan	Shree Sayan Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Sayan, Tal. Olpad, District Surat-394 130	92.46
5	10501 Mahuva	Shree Mahuva Pradesh Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Sugar Factory Bamania, Teh. Mahuva, District Surat-394240	94.92
6	10601 Paniari	Shree Ukai Pradesh Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd. At. P.O. Paniari, District Surat	82.62
7	10701 Gandevi	The Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Gandevi Via Billimora, District Valsad – 396 360	96.56
8	10801 Maroli	Shri Maroli Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Kalyan Nagar, P.O. Maroli Bazar, District Valsad	86.72
9	10901 Valsad	Shree Valsad Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Parnera-Pardi, District Valsad – 396 001	*
10	11101 Kamrej	Shri Kamrej Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Navi Pardi 394 150, Tal. Kamrej, District Surat	94.92
11	32101 Vataria	Shree Ganesh Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Dasad Vataria, Taluka Vali, District Bharuch	88.36
12	40901 Dharikheda	Shri Narmada Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Charikheda, P.O. Timbi, Taluka Nanded, District Bharuch	88.36
13	41001 Gandhara	Vadodara District Cooperative Sugarcane Grower's Union Ltd., At & P.O. Gandhara, Teh. Karjan, District Vadodara.	80.98
14	41101 Kosamba	Shree Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Pandvai Taluk, Hansot, District Bharuch, Post Box No. 3, Kosamba – 394 120.	88.36
15	43101 Ladhod	Sardar Cooperative Sugar Industries Ltd., Ladhod, Teh. Sankhed, District Vadodara.	*
GUJARAT (SAURASHTRA)			
16	11001 Kodinar	Shri Bileshwar Khand Udyog Khedut Sahakari Mandli Ltd., P.O. Kodinar, District Amreli-364601	*
17	11301 Talala	Shree Talala Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Talala(Gir), Distt. Junagarh-362150	*

1	2	3	4
KARNATAKA			
1	17203 Sameerwadi	The Godavari Sugar Mills Ltd., P.O.Sameerwadi, Tal. Mudhol, Distt. Bijapur-587316	96.56
2	26201 Mandya	The Mysore Sugar Co. Ltd., Mandya, District Mandya-571402	*
3	26301 Gangavati	Gangavati Sugars Ltd., Post Pragatinagar, Tal.Gangawati, District Raichur-583268	75.24
4	26401 Bhadravati	The Mysore Paper Mills Ltd., P.O. Paper Town, Bhadravati, District Shimoga-577302	89.18
5	26501 Pandavapura	Pandavapura Sahakari Sakkar Karkhana Ltd., P.O.Pandavapura, District Mandya-571435	*
6	26601 Nipani	Shri Halasidhanath Sahakari Sakhar Karkhane Ltd., P.O.Nipani,Tal. Chikodi, District Belgaum-591 237	103.12
7	26701 Sankeshwar	Shri Hiranyakeshi Sahakari Sakhar Karkhane Niyamit, P.O.Sankeshwar, District Belgaum-591314	101.48
8	26801 Malaprabha	Shri Malaprabha Cooperative Sugar Factory Ltd., P.O. Muguthan Hubli, District Belgaum-591153	87.54
9	26901 Chikodi	Shree Doodhaganga Krishna Sahakari Sakhar Karkhane Niyamit, P.O. Chikodi, District Belgaum-591247	100.66
10	27001 Raibag	Raibag Sahakari Sakhar Karkhane Niyamit Taluk Raibag, Distt. Belgaum-591 317	*
11	27101 Gokak	The Ghataprabha Sahakari Sakhar Karkhane Niyamit, P.O. Gokak, District Belgaum	95.74
12	27301 Gauribidanaur	Siruguppa Sugars & Chemicals Ltd., Unit - Gauribidanaur, District Kolar-561208	*
13	27401 Bidar	The Bidar Sahakari Sakhar Karkhane Ltd., Hallikhed, Distt. Bidar	87.54
14	27501 Vanivilasa	Vanivilasa Cooperative Sugar Factory Limited, P.O. Hiriyur, District Chitradurga	*
15	27601 Bhadra	Bhadra Sahakari Sakhar Karkhane Niyamit, P.O. Doddabathi, Taluk Davangere, District Chitradurga-577566	87.54
16	27701 K.R.Nagar	Shreerama Sahakari Sakkar Karkhana Ltd., Chunchanakatte, Krishnarajanagar Mysore Road, District Mysore	*
17	27801 Haveri	Karnataka Sahakari Sakkare Karkhane Ltd., Haveri, District Dharwad-581110	85.08

1	2	3	4
18	27901 Hemavathy	The Hemavathy Sahakari Sakkar Karkhana Ltd. P.O. Srinivaspura, Channarayapatna Taluk, District Hassan-573116	*
19	28001 Brahmawar	Dakshina Kannada Sahakari Sakkar Karkhana Ltd., Brahmawar, Dakshina Kannada – 576213.	73.60
20	28101 Chamundeshwari	Sri Chamundeshwari Sugars Ltd., P.O. Bharathi Nagar, District Mandya-571 422	78.52
21	28401 Ugarkhurd	The Ugar Sugar Works Ltd., P.O. Ugarkhurd, District Belgaum – 591 316.	98.20
22	28501 Hospet	The India Sugar & Refinerles Ltd., P.O. Chitwadgi, Taluka Hospet, District Bellary-583211	89.18
23	28601 Siruguppa	Siruguppa Sugars & Chemicals Ltd., P.O. Desamuk, Bellary 583 140	85.08
24	28701 Davangere	Davangere Sugar Co. Ltd., Kukkavada, Tal. Davangere, District Chitradurga	*
25	28801 Kollegal	Khodey Distilleries Ltd., P.O. Kollegal, Distt. Mysore	*
26	30902 BAS	Bannari Amman Sugars Ltd., Unit – II, Alagarchi Village, Tal. Nanjangud-571301, District Mysore	*
27	32501 Aland	Sahakari Sakhar Karkhane Niyamit, P.O. Bhusnoor, The. Aland, District Gulburga-585302	79.34
28	35401 Bijapur	The Nandi Sahakari Sakhar Karkhane Niyamit, Taluk Krishnanagar, Near Chikka Galagali, District Bijapur-586101.	95.74
29	40601 Kupatgiri	Shri Bhagyalaxmi Sahakari Sakhar Karkhane Ltd., Kupatgiri, Taluka Khanapur-591302, District Belgaum,	90.82
30	45401 Jamkhandi	Jamkhandi Sugars Ltd., Hirapadasalagi, Tehsil Jamkhandi, District Bijapur.	96.56
31	45601 Ranna Nagar	Rayatara Sahakari Sakhare Karkhane Niyamit, Rannanagar, Taluka Mudhol, District Bagalkot- 587313	96.56
32	49801 Shamanur (Duggavathi)	Shamanur Sugar Ltd., Duggavathi, Taluk Hardhanhalli, District Davangere.	83.44
33	49901 Makkavalli	ICL Sugars Ltd., New Hemavathi Extension, Kikkeri Road, Taluk K.R. Pet. 571426, Mandya District	*
34	50201 Manoli	Renuka Sugars Ltd., Manoli, Tal. Sawadathi, District Belgaum	93.28

1	2	3	4
35	50301 Siddapur	Prabhulingheshwar Sugar Works Ltd., Siddapur, Taluk Jamkhandi, District Bagedkot	103.12
36	51901 Mudhol	Nirani Sugars Ltd., Mudhol – 507313, District Bagalkot	*
37	52002 Venkateshwara	Venkateshwara Power Project Ltd Bedakihal Taluk Chikodi, District Bengam	90.00
38	52004 Madabhavi	M/s. Athani Farmers Sugar Factory Ltd., Madabhavi Village, Taluk Athani, District Belgaum.	94.92

KERALA

1	31301 Chittur	The Cooperative Sugars Ltd., Chittur, P.O. Menonpara, District Palghat-673556	*
---	------------------	--	---

GOA

1	31501 Tiska	Sanjivani Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Dayanandnagar, Post Tiska, District Goa-403406	73.60
---	----------------	--	-------

MADHYA PRADESH

1	09301 Morena	Morena Mandal Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kailaras, District Morena-476224	30.98
2	09401 Barlai	Malwa Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Barlai (Kashipara), District Indore	73.60
3	09501 Naval Nagar	Navalsingh Sahakari Sakhar Karkhana Maryadit, Naval Nagar, Durhanpur, District Khandwa-450311	88.36
4	09601 Dabra	The Gwalior Sugar Co. Ltd., Dabra, District Gwalior-475110	81.80
5	09901 Sehore	The Bhopal Sugar Industries Ltd., P.O. & Distt. Sehore-466003	*
6	37201 Khalbujurg	Narmada Sugars Ltd., Khalbujurg, Teh. Kasarabad, District Khargone	82.62
7	51201 Krishak	Krishak Sahakari Sakhar Karkhana Maryadit, Naryanpura, Tehsil Raghogarh, District Guna	*

1	2	3	4
8	51701 Khargone	Jawaharlal Nehru Sahakari Soot Mills Ltd. Sarvardevla, District Khargone	88.36

MAHARASHTRA

1	11801 Niphad	Niphad Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Bhausaheb Nagar, Tal. Niphad, District Nasik-422301	98.20
2	11901 Karanveer	Karamveer Kakasaheb Wagh Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ranwad, Taluk Niphad, District Nasik-422304	*
3	12001 Materewadi	Kadwa Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Materewadi, Taluka Dindori, District Nasik-422209	103.12
4	12101 Paise	Nasik Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Paise, Distt. Nasik-423808	94.92
5	12201 Vithewadi	Vasantao Dada Patil Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Vithewadi (Lohaner), District Nasik	91.64
6	12301 Sanjivani	The Sanjivani (Takli) Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Tal. Kopargaon, District Ahmednagar-423602	99.02
7	12401 Kopargaon	The Kopargaon Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Post Kolpewadi, District Ahmednagar-423602	95.74
8	12501 Ganeshnagar	Shri Ganesh Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Ganeshnagar, P.O. Ranjangaon Khurd, District Ahmednagar-413719	96.56
9	12601 Ashoknagar	Ashok Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ashoknagar, Karegaon Factory, P.O. Shrirampur, District Ahmednagar-413701	99.84
10	12701 Pravaranagar	Padma Shri Dr. Vithalrao Vikhe Patil Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pravaranagar, District Ahmednagar-413712	98.20
11	12801 Rahuri	The Rahuri Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Rahuri Factory, District Ahmednagar-413706	98.20
12	12901 Shrigonda	The Shrigonda Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Shrigonda, District Ahmednagar-413701	90.82
13	13001 Sangamner	Sangamner Bhag Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Amritnagar, Tal. Sangamner, District Ahmednagar- 422603	100.66
14	13101 Bhende	Shri Dhyaneshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhende, Taluka Newasa, District Ahmednagar- 414603	99.02
15	13201	Shri Vrideshwara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.,	85.90

1	2	3	4
	Vrideshwar	Bhende, P.O. Vridheshwar Sakhar Karkhana, Taluka Pathardi, District Ahmednagar (Pimpalgaon)- 414505	
16	13301 Jagdamba	Shri Jagdamba Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Rashin, Teh. Karjat, District Ahmednagar-414403	*
17	13401 Sonai	The Mula Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Sonai, Taluka Newasa, District Ahmednagar-414105	105.58
18	13501 Parner	Parner Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Parner, District Ahmednagar	*
19	13601 Nira	Shree Someshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Someshwarnagar, Nira, District Pune-412102	96.56
20	13701 Malegaon	The Malegaon Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Malegaon, B.K. District Pune-423203	100.66
21	13801 Bhavaninagar	Shri Chhatrapatti Patil Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhavaninagar, Taluka Baramati, Indapur, District Pune-413104	94.92
22	13901 Theur	Yeshwant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Chintamaninagar, P.O. Theur, Taluka Haveli, District Pune-412110	99.02
23	14001 Patas	Bhima Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Patas, Taluka Daund, Distt. Pune-412215	95.74
24	14101 Junnar	Shri Vighnagar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Junnar, At & Post Shirol B.K., District Pune	*
25	14201 Akluj	Sahakar Maharishi Shankarrao Mohite Patil Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shankarnagar, Akluj Yeshwantnagar, Taluka Malshiras, District Sholapur-413118	103.12
26	14301 Sadashivnagar	Shri Shankar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Sadashivnagar, Tal. Malshiras District Sholapur-412111	96.56
27	14401 Kumathe	Shree Sidheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kumathe, P.O. Tikekarwadi, District Sholapur-413225	94.10
28	14501 Gursale	Shri Vithal Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Gursale, Taluka Pandharpur, District Sholapur-413304	100.66
29	14601 Vairag	Bhogawati Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Irle Vairag, Taluka Barsi, District Sholapur-413 402	86.72
30	14701 Bhima	Bhima Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Sikandar Takli, Teh. Mahol, District Sholapur-413 402	102.30
31	17101 Ravalgaon	The Ravalgaon Sugar Farm Ltd., Ravalgaon, District Nasik,	86.72
32	17701 Malinagar	The Saswad Mali Sugar Factory Ltd., P.O. Malinagar, District Sholapur-413108	99.02

1	2	3	4
33	17801 Pandurang	Shree Pandurang Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Shreepur, Taluka Malshiras, District Solapur- 413112	108.86
34	33101 Indapur	Indapur Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Mahatma Phulenagar, (Bijawadi), Pune-Solapur Road, Taluka Indapur, District Pune	96.56
35	34001 Rajgad	Rajgad Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Nigade, Tal. Bhore, District Pune	91.64
36	35301 Agasti	Bhausahab Mahadeao Hande Agasti Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Agastinagar, P.O. Akola, District Ahmednagar	92.46
37	35501 Sant Damaji	Shri Sant Damaji Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shiranadagi, Mangalvedha, District Solapur	90.82
38	39001 Kedareshawar	Kedareshawar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Suman Nagar, Post Bodhegaon, Teh. Shegaon, District Ahmednagar - 414 503	88.36
39	39501 Sant Tukaram	Shri Sant Tukaram Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kasarsai Darumbre, P.O. Chandkhed, Taluka Mulshi, District Pune	102.30
40	40001 Shirur	Ghodganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Nhavare, Teh. Shirur, District Pune	100.66
41	40201 Partur	Shri Bageshwari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Tal. Partur, District Jalna	*
42	46201 Ambegaon	Bhima Shankar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ambegaon, Via Avasari Tehsil, District Pune	97.38
43	50901 Lokmangal	Lokmangal Agro Industries Ltd., Village Bibi Darphal, Taluk North Solapur, District Solapur.	*
44	51501 Saikirpa	Sai Kripa Sakhar Karkhana Ltd. Devdaithan, Taluk Shrigonda, District Ahmednagar.	90.00
45	52301 Laxminagar	Loknete Baburao Patil Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Laxminagar Angar, Taluk Mohol, District Solapur.	95.74
46	52003 Nagar Taluk	Nagar Taluk Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Walki, Taluk Nagas, District Ahmednagar.	85.90
47	52601 Nira Bhima	Nira Bhima Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Shaheji Nagar, Taluk Indapur, District Pune.	*
48	38601 Sangola	Sangola Taluka Sahakar Sakhar Kharka Ltd., Waki (Shivane), Taluk Sangola, District Solapur.	*
49	52001 Pimpalnear	Vitthal Rao Shinde Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Gangamail Nagar, Taluk Madha, District Solapur.	98.20

1	2	3	4
50	14801 Shriram	Shriram Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Phaltan, Distt. Satara-415523	*
51	14901 Krishna	Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Rethare Budruk, P.O. Shrivnagar, District Satara-415108	101.48
52	15001 Bhuinj	Kisanveer Satara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhuinj, Taluka Wai, District Satara,	91.64
53	15101 Marali	Balasaheb Desai Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Daulatnagar (Marali), Taluka Patan, District Satara-415206	*
54	15201 Sahyadri	Sahyadri Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Yeshwantnagar, Taluka Karad, District Satara-415110	103.94
55	15301 Shendre	Ajinkyatra Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shendur, District Satara,	99.84
56	15401 Sangli	Vasantdada Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. & District Sangli	101.48
57	15501 Walwa	Rajaram Bapu Patil Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Rajaramnagar, Post Sakharale, Taluka, Walwa, District Sangli-415409	108.04
58	15601 Vishwas	Vishwas Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Yeshwatnagar, Post Chikhali, Taluka Shirala, District Sangli-415408	108.86
59	15701 Hutatma	Hutatma Kisan Ahir Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Walve, District Sangli-416413	112.14
60	15801 Atpadi	Manganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Sonarsidhnagar Atpadi, District Sangli	94.92
61	15901 Negewadi	Yeshwant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Nagewadi, Taluka Khanapur, District Sangli.	93.28
62	16001 Mahankali	Mahankali Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Rajarambapunagar, Taluka Kavathe Mahankali, District Sangli.	94.92
63	16101 Wama	Shree Wama Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Wamanagar, Tal. Tanhali, District Kolhapur-416113	109.68
64	16201 Ichalkaranji	Shree Panchganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ganganagar, Ichalkaranji, District Kolhapur-416115	103.12
65	16301 Kumbhl Kasari	Kumbhl Kasari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kuditre, Tal. Karvir, District Kolhapur-416201	111.32

1	2	3	4
66	16401 Bidri	Shree Dudhganga Vedganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bidri, P.O. Mouninagar, Taluka. Kagal, District Kolhapur-416208	108.86
67	16501 Bhogawati	Shree Bhogawati Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shahunagar, Post Parite, District Kolhapur-416211	111.32
68	16601 Shirol	Shri Datta Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shirol, Taluka Shirol, District Kolhapur-416103	108.04
69	16701 Daulat	Daulat Shetakari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Halkarni, Tal. Chandgad, District Kolhapur-416507	101.48
70	16801 Gadhinglaj	Gadhinglaj Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Gadhinglaj, District Kolhapur-416502	100.66
71	16901 Kagal	Shree Chhatrapatti Shahu Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kagal, District Kolhapur-416216	113.78
72	17001 Asrule	Shri Datta Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Asrule, Tal. Panhala, District Kolhapur-416 201	96.56
73	17201 Hupari	Jawahar Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Hupari, Tal. Hatkangale, District Kolhapur-416203	104.76
74	17901 Phaltan	New Phaltan Sugar Works Ltd., Taluka Phaltan, P.O. Shakharwadi, District Satara-415522	76.06
75	18001 Kolhapur	Shri Chatrapati Rajaram Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kasaba Bhavada, District Kolhapur-416001	107.22
76	33601 Tasgaon	Tasgaon Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Tasgaon, (Turchi Phata), Post Turchi, Tal. Tasgaon, District Sangli.	*
77	35901 Jeur	Adinath Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shelgaon-Balwani, P.O. Jeur- 413 202, Teh. Karmala, District Sholapur,	100.66
78	38101 Sukale	Akola Zilla Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Sukale, Vizore, District Akola	87.54
79	38401 Ajara	Ajara Shetakari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Post G. Avase Taluka, Ajara, District Kolhapur,	100.66
80	38801 Koregaon	Jarandeshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Jarandeshwar, Chimangaon TK. Koregaon, District Satara	89.18
81	39401 Tippehalli	Jath Taluka Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Tippehalli Jath - 416404, Taluka Jath, District Sangli,	85.08
82	46001 Wangi	Sonhira Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Wangi, Taluka Khanapur, District Sangli	103.12
83	46901 Raigaon	Dongarai Sagareshwar Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Raigaon, Taluk Khanapur, District Sangli.	99.02

1	2	3	4
84	50801 Hamidwada	Kagal Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Hamidwade Kaulage, Taluk Kagal, District Kolhapur.	105.58
85	51001 Kokarud	Ninai Devi Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kokarud, Taluk Shirala, District Sangli.	94.10
86	52006 Shewalewadi	Rayat Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Shewalewadi, Taluk Karad, District Satara.	90.82
87	52501 Narande	Sharad Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Narande, Taluk Hatkangale, District Kolhapur.	*
88	18101 Gangapur	Gangapur Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O.Raghunathnagar, District Aurangabad-431110	*
89	18201 Sillod	Sidheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Maniknagar, Taluka Sillod, District Aurangabad- 431135.	94.92
90	18301 Kannad	The Kannad Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kannad, District Aurangabad - 431103	*
91	18401 Parsoda	The Vinayak Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Parsoda, Taluka Vaijapur, District Aurangabad- 123703.	*
92	18501 Paithan	Shri Santh Ek-Nath Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Paithan, Distt. Aurangabad-431106	*
93	18601 Terna	Terna Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ternanagar, Taluka Dhoki, District Osmanabad - 413508	98.20
94	18701 Naldurg	Tulja Bhawani Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Naldurg, Tal. Tuljapur, District Osmanabad,	80.16
95	18801 Kalambar	Kalambar Vibhag Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kalamber, Post Gandhinagar, Taluka Kandhar, District Nanded.	*
96	18901 Shankarnagar	Godavari Manar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shankarnagar, P.O. Ram Tirath Taluka Bilali, District Nanded	*
97	19001 Panzarakhani	Shri Panzarakhani Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhadne, Tal. Sakri, District Dhulia - 424304.	*
98	19101 Satpuda	Shree Satpuda Tapi Parisar Sakhar Karkhana Ltd., P.O.Purshottamnagar, Taluka Shahada, Dhulia - 424304	71.96
99	19201 Jijamata	Jijamata Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Dusarbid, Tal. Mekhar, District Buldana-440010	*
100	19301 Pusad	Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pusad, District Yavatmal - 415 201	97.38

1	2	3	4
101	19501 Pathri	The Godavari Dudhana Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Deonandra, Post & Taluka Pathri, District Parbhani,	86.72
102	19601 Basmathnagar	Purna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Basmathnagar, District Parbhani – 431 512	92.46
103	19701 Ambajogai	The Ambajogai Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Ambasakhar, Tal. Ambajogai, District Beed-431523	97.38
104	19801 Georai	Jai Bhavani Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Georai, District Beed-431127	92.46
105	19901 Kada	Kada Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Kada, Tal. Ashti, District Beed-414 202	78.52
106	20001 Gajanan	Gajanan Cooperative Sugar Factory Ltd., Sonajinagar, At Taluka & Post Rahuri, District Beed-431122	90.82
107	20201 Faizpur	Madhukar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Faizpur, District Jalgaon-425503	93.28
108	20301 Bhoras	Belganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhoras, Taluka Chalisgaon, District Jalgaon (Bhoras) 424403	*
109	20501 Shirpur	Shirpur Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Dahiwad, Tal. Shirpur, District Dhule-425405	87.54
110	20601 Samarth	Samarth Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ankushnagar Post, Wadigondri Taluk, Mahalala Tal. Ambad, District Jalna	100.66
111	20701 Jalna	Jalna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Village Ramnagar, Teh. & District Jalna	*
112	20801 Nalegaon	Jai Jawan Jai Kisan Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Nalegaon, Tal. Ahmedpur, District Latur – 413 524.	90.82
113	20901 Manjara	Manjara Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Tal. Chincholirao, District Latur – 413 531.	107.22
114	21001 Killari	Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Killari, Distt. Osmanabad – 413 516.	*
115	21201 Mauda	Shriram Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bardeo Taluk, Mauda, District Nagpur.	*
116	21301 Jamani	Mahatma Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Jamani, Tal. Seloo, District Wardha	94.92
117	32001 Wainganga	The Wainganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Teh. Maholi Road, District Bhandara	84.26
118	32201 Balaji	Shree Balaji Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kesho Nagpur, Masalupan, Taluka Risod,	*

1	2	3	4
		District Akola	
119	32301 Golegaon	Shri Shankar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Phulenagar Golegaon, Teh. Bhokar, District Nanded	85.90
120	35101 Phulambri.	Shri Namdev Rao B. Gakekar . Deogiri Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Phulambri, Taluka & District Aurangabad,	*
121	35601 Majalgaon	Majalgaon Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Nithrud, Teh. Majalgaon, District Beed	101.48
122	35801 Bodhegaon	Pushadanteshawar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Mungsaji Nagar, Bodhegaon District Yeotmal.	*
123	36201 Mangraul	Shri Shankar Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Mahagaon, Village Mangraul, Taluka & District Yavatmal - 445105	83.44
124	36501 Chopada	Shri Chopada Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Machale, Teh. Chopada, District Jalgaon - 125 107	94.10
125	36901 Sant Muktabai	Shri Sant Muktabai Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pratibha Nagar(Ghodasgaon), Taluka Muktabai Nagar, District Jalgaon - 425 306.	*
126	37501 Samsherpur	Pushpadanteshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Samsherpur Taluk Nadurbar, District Dhule.	99.02
127	37601 Kaij	M/s. Padamshri Dr. Vitthalrao Vikhe Patil Sahakar Sakhar Karkhana Ltd., At-Kothi, Taluk Kaij, District Beed.	83.44
128	37901 Saoner	Ramganesha Gadkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Saoner, District Nagpur	*
129	38001 Kondeshwar	Shri Kondeshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Ramnagar, Taluka Nandgaon (Kh.), Phubgaon, District Amravati.	*
130	38501 Ambulga	Shivajirao Patil Nilangakar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ambulga (B.K.), Tehsil Nilanga, District Latur	*
131	38901 Hinganghat	The Sahar Maharshi Late Shri Bapuraoji Deshmukh Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Vela, Tehsail Hinganghat, District Wardha	98.20
132	39101 Surya Nagar/ Hadgaon	Smt. Suryakanta Patil Jaiwantrao Patil Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Surya Nagar, Post and Tal Hadgaon,, District Nanded,	92.46
133	39201 Lohgaon	Narsinha Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Lohgaon, Taluka & District Parbhani-451401	*
134	39301 Biloli	Jai Ambika Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Mohan Nagar, Kuntur, Via-Naigaon, Taluka Biloli, District Nanded	84.26
135	39701 Ujana	Balaghat Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Ujana, Tehsil Ahmedpur, District Latur.	*

1	2	3	4
136	39801 Chikhali	Pushpawati Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., At Chikhali, Tal. Pusad, District Yavatmal	*
137	39901 Akalkot	Indra Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Mirajagim, Taluka Akalkot, District Sholapur	90.00
138	40101 Muckhed	Bhaurao Chauvan Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Laxminagar, Deogaon-Yelegaon, District Nanded	96.56
139	46401 Sipora Bazar	Shree Rameshwar Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Raosaheb Nagar, Post Sipora Bazar, Taluk Bhokardan, District Jalna	92.46
140	46801 Murum	Shri Vitthal Sahakar Sakhar Kharkana Ltd., Marum, Taluk Omerga, District Osmanabad.	*
141	49601 Bhalwani	Chandrabhaga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., B. Halwani, Taluk Pandharpur, Distt. Sholapur- 413 304	97.38
142	49701 Jwala Bazar	Barashiv Hanuman Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Jwala Bazar Taluk Basmathnagar, Distt. Parbhani,	90.82
143	50101 Pangri	M/s. Vaidva Nath Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pangri, Taluk Parli, District Beed-431515.	103.12
144	50701 Ranjani	National Sugar & Allied Industries Ltd., Ranjani, Taluka, Kallamb, Distt. Osmanabad	105.58
145	51101 Gangama	Gangamai Sugar Industries Ltd., Ghatnandra, Taluk Sillod, District Aurangabad.	80.98
146	51401 Dwarkadhish	Dwarkadhish Sakhar Karkhana Ltd., Shavare, P.O. Taharabad, Taluk Bagalan, District Nasik.	92.46
147	52005 Anuradha	Anuradha Sugar Mills Ltd., Shrimunraj, Maharaj Nagar, Taluk Waru (Dhad), District Buldana.	82.62
148	52007 Pimpalgaon	M/s. Chhatrapati Sambhaji Raje Sakhar Udyog Ltd., Dindayalnagar, Chittepimpalgaon, Taluk & District Aurangabad.	94.10
149	52401 Pawarwadi	Jai Mahesh Sugar Industries Ltd., Pawarwadi, Taluk Majalgaon, District Beed.	89.18
150	52009 Kashegaon	Shri Baba Saheb Ambedkar SSK Ltd., Keshegaon, District Osmanabad.	98.20
151	52003 Nivile	Vikas SSK Ltd., Vaishalinagar, Nivli, Taluk and District Latur.	*

1	2	3	4
152	52201 Yogeshwari	Yogeshwari Sugar Industries Ltd., Laxminagar, At Limba, Taluk Pathari, District Parabhani.	105.58
153	51301 Pangaon	Pannageshwar Sugar Mills Ltd., Pangaon, Taluk Renapur, District Latur.	99.02
PONDICHERY			
1	31001 Pondicherry	The Pondicherry Cooperative Sugar Mills Ltd., At Lingareddipalayam, Manndipat Commune	*
2	31101 New Horizon	New Horizon Sugar Mills Pvt. Ltd., Sagrur (Aniyur), P.O. Kandamanglam, District Pondicherry-605102	*
PUNJAB			
1	00101 Gurdaspur	Gurdaspur Cooperative Sugar Mills Ltd., (Unit Gurdaspur), Post Box No. 27, Gurdaspur, District Gurdaspur-143521	84.26
2	00102 Zira	Zira Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Zira, Distt. Ferozepur-142047	*
3	00201 Batala	The Batala Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Batala, District Gurdaspur-143505	*
4	00301 Fazilka	Fazilka Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Fazilka, District Ferozepur-152123	85.90
5	00401 Morinda	The Morinda Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Morinda, District Roopnagar-140101	*
6	00501 Bhogpur	The Bhogpur Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Bhogpur, District Jalandhar-144201	85.90
7	00601 Nawanshahr	The Doaba Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Nawanshahr, District Jullundur-144514	76.88
8	00701 Patiala	The Patiala Cooperative Sugar Mills Ltd., Village Rakhra, Post Box No. 71, District Patiala-147001	74.42
9	00801 Budhewal	Budhewal Cooperative Sugar Mills Ltd., Vill. & P.O.: Budhewal-141112, Doraha, The. Samrala, District Ludhiana	77.70
10	00901 Dhuri	Bhagwanpura Sugar Mills Ltd., P.O. Dhuri, District Sangrur-148024	*
11	01001 Phagwara	Oswal Agro Mills Ltd., G.T. Road, P.O. Phagwara, District Kapurthala-144401	73.60
12	31601	Taran Taran Cooperative Sugar Mills Ltd.,	*

1	2	3	4
13	Seron 31901 Nakodar	Seron, Teh. Taran Taran, District Amritsar-148111 Nakodar Cooperative Sugar Mills Ltd., Nakodar, District Jalandar	*
14	33201 Jagraon	The Jagraon Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Jagraon, Hathoor Kamalpur, District Ludhiana	*
15	33501 Ajnala	The Ajnala Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhalapind, Teh. Ajnala-143102, District Amritsar	77.70
16	33701 Faridkot	The Faridkot Cooperative Sugar Mills Ltd., Rori, Chatsinghwa, P.O. & District Faridkot-151203	*
17	34201 Mukerian	Oswal Sugars Ltd., G.T. Road, Mukerian-144221, District Hoshiarpur	*
18	36001 Baba Bakala	Rana Sugars Ltd., Village Batur Bakala, Taluka Baba-Bakala-143202, District Amritsar.	*
19	42001 Dasuya	The Punjab State Federation of Cooperative Sugar Mills Ltd., At & Teh. Dasuya, District Hoshiarpur	85.90
20	42201 Patran	Piccadily Sugars & Allied Industries Ltd., Patran-147105, Teh. Samana, District Patiala	*
21	42301 Amloh	Nahar Sugar & Allied Industries Ltd., Amloh-147201, Teh. Nabha, District Patiala	81.80
22	51601 Malout	Markfed Sugar & Allied Industries, Malout, District Muktsar.	*
RAJASTHAN			
1	01901 Sriganganagar	Sri Ganganagar Sugar Mills Ltd., Sriganganagar-335001, District Sriganganagar	*
TAMIL NADU			
1	25802 Pugalur	Nava Bharat Ferro Alloys Ltd., P.O. Pugalur Sugar Factory, District Tiruchirapalli	80.98
2	28602 Lalgudi	Kothari Sugars & Chemicals Ltd., Kattur, Lalgudi, District Tiruchirappalli	79.34
3	28901 Thanjavur	Arignar Anna Sugar Mills Ltd., Kurungulam, District Thanjavur	74.42
4	28902 Perambalur	Perambalur Sugar Mills Ltd., Eraiur, Taluka Perambalur, District Tiruchirapalli	79.34
5	28903 Madura	Madura Sugars, (A Tamil Nadu Sugar Corporation. Ltd.), Pandiarajapuram, District Madurai	71.14
6	29001 Mayiladuthurai	Nadippisai Pulavar K.R. Mayiladuthurai Sugar Mills Ltd.,	70.32

1	2	3	4
7	29101 Ambur	Mayiladuthurai, District Thanjavur The Ambur Cooperative Sugar Mills Ltd., Vadapudupet, Ambur, District North Arcot	*
8	29201 Vellore	The Vellore Cooperative Sugar Mills Ltd., Ammundi, P.O. Vellore Sugar Mills, District North Arcot	*
9	29301 Tirupattur	Tirupattur Cooperative Sugar Mills Ltd., Kothandapatti, Village Vaniambadi Taluka, District North Arcot	83.44
10	29401 Kallakurichi	Kallakurichi Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Moongilthuripattu, Taluka Kallakurichi, District South Arcot	77.70
11	29402 Kachirayapalayam	The Kallakurichi-II Cooperative Sugar Mills Ltd., Kachirayapalayam, Taluka Kallakurichi, District Villupuram R.P.	79.34
12	29501 Ulundarpet	Chengalrayan Cooperative Sugar Mills Ltd., Periyasevalai, Ulundarpet Taluk, District South Arcot	76.06
13	29601 Madurantakam	The Madurantakam Cooperative Sugar Mills Ltd., Padalam, District Chengalpattu	*
14	29701 Tiruttani	Tiruttani Cooperative Sugar Mills Ltd., Thiruvalangadu, P.O. Tiruttani, District Chngengalpattu	69.50
15	29801 Salem	The Salem Cooperative Sugar Mills Ltd., Mohanur, District Salem	*
16	29901 Dharmapuri	Dharmapuri District Cooperative Sugar Mills Ltd., Palacode-636808, Dharmapuri District	95.74
17	30001 Amaravathi	Amaravathi Cooperative Sugar Mills Ltd., Krishnapuram, District Coimbatore	*
18	30101 Alanganallur	The National Cooperative Sugar Mills Ltd., Metupatti Via Alanganallur, District Madurai	80.16
19	30201 Thiru Arooran	The Thiru Arooran Sugars Ltd., Kollumangudi Village in Peralam/Agarathirumalam Firka in Nannilam Taluk, Nagai Quid-e-Milleth District	*
20	30202 Thirumand- Ankudi	Thiru Arooran Sugars Ltd., Unit: Thirumandankudi, Papanasam, District Thanjavur	75.24
21	30301 Cauvery	Cauvery Sugars & Chemicals Ltd., Pettaivayasalai, District Tiruchirappali	80.98
22	30401 Nellikuppam	EID Parry (India) Ltd., Nellikuppam, District South Arcot	73.60

1	2	3	4
23	30501 Villupuram	The South India Sugars Ltd., Mundiappakkam, Village. Villupuram, District South Arcot	82.62
24	30601 Ambika	Shree Ambika Sugars Ltd. Pennadam, District South Arcot	75.24
25	30602 Kottur	Shree Ambika Sugars Ltd. Kottur T.K.Thiruvidaimaruthur, District Thanjavur.	73.60
26	30701 Ponni	Ponni Sugars & Chemicals Ltd., Pallipalayam, Tal. Tiruchengode, District Salem	91.64
27	30801 Sakthi	The Sakhti Sugars Ltd., Sakhtinagar, P.O. Erode R.M.S., District Periyar	87.54
28	30802 Shivganga	Sakhti Sugars Ltd., Tal. Sivganga, Distt. Pasumpan Muthuraalingam	77.70
29	30901 Bannari Amman	Bannari Amman Sugars Ltd., Village Alathukombai, Sathyamanglam, District Periyar	90.00
30	32601 Dharani	Dharani Sugars & Chemicals Ltd., Dharaninagar Vasudevanalur, Taluka Sivagiri, District Thirunelveli	76.06
31	32603 Pollur	Dharani Sugars & Chemicals Ltd., Village Karaipoondi, Taluka Pollur, Distt. Thiruvannamalai Sambuvarayar	77.70
32	32801 Rajshree	Rajshree Sugars & Chemicals Ltd., Periyakulam, District Madurai	86.72
33	33001 Sethiathope	M.R. Krishnamurthy Cooperative Sugar Mills Ltd., Sethiathope, Teh. Chidambaram, District South Arcot	71.96
34	33401 Cheyyar	Tamil Nadu Cooperative Sugar Federation Ltd., Thiruvattipuram, Cheyyar/Wandewash, District North Arcot	73.60
35	35001 Alapuram	Subramania Shiva Cooperative Sugar Mills Ltd., Alapuram, Teh. Harur, District Dharmapuri	85.90
36	43501 Palayaseevaram	S.V. Sugar Mills Ltd., Palayaseevaram, Waljabad Firka, District Chegalpattu MGR	75.24
37	50501 Aranthangi	E.I.D. Parry (India) Ltd., Pudukottai Sugar Factory, Aranthangi Taluk, Pudukottai District, Kurumbur-614622	77.70
38	51801 Arunachalam	Arunachalam Sugar Mills Ltd., Malapambady Village, Taluk and District Thiruvannamalai.	*

1	2	3	4
UTTAR PRADESH			
1	02201 Mohiuddinpur	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit: Mohiuddinpur-201205 , District Meerut	78.52
2	02202 Sakhoti Tanda	The U.P. State Sugar Corporation. Ltd. Unit: Sakhoti Tanda, P.O.Sakhotitanda, District Meerut-250223	78.52
3	02204 Bulandshahr	U.P. State Sugar Corporation. Ltd., Panninagar, P.O.Bulandshahr-203001 District Bulandshahr-203001	71.96.
4	02205 Saharanpur	U.P. State Sugar Corporation. Ltd., Unit. Saharanpur, P.O.Saharanpur-247001, District Saharanpur-247001	*
5	02206 Rohanakalan	U.P. State Sugar Corporation. Ltd., P.O. Rohana Kalan, District Muzaffarnagar-251202	73.60
6	02301 Bagpat	The Bagpat Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O.Bagpat-250609, District Meerut	78.52
7	02401 Ramala	Ramala Sahakari Chini Mills Ltd. P.O.Ramala-250617, District Meerut	78.52
8	02501 Anoopshahr	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Anoopshahr, P.O.Jahangirabad-202394, District Bulandshahr,	76.88
9	02601 Sarsawa	Kisan Cooperative Sugar Factory Ltd., P.O.Sarsawa, District Saharanpur-247332	*
10	02701 Nanauta	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O.Nanauta, District Saharanpur-274524	77.70
11	02801 Morna	The Ganga Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Morna, The. Jansath, District Muzaffarnagar-251316	79.34
12	02901 Daurala	Daurala Sugar Works, P.O.Daurala, District Meerut-250221	89.18
13	02902 Mawana	Mawana Sugar Works, P.O.Mawana, District Meerut-250401	83.44
14	03001 Deoband	Gangeshwar Ltd., P.O.Deoband, District Saharanpur-247554	81.80
15	03301 Khatauli	The Triveni Engineering Works Ltd., Sugar Unit: The Upper India Sugar Mills, P.O.Khatauli, District Muzaffarnagar-251203	84.26

1	2	3	4
16	03401 Mansurpur	Mansurpur Sugar Mills Ltd., P.O.Mansurpur, District Muzaffarnagar-251203	77.70
17	03501 Shamli	The Upper Doab Sugar Mills Ltd., P.O. Shamli, District Muzaffarnagar-247776	86.72
18	03601 Modinagar	The Modi Industries Ltd., P.O.Modinagar, District Ghaziabad-201204	85.08
19	03602 Malakpur	SBEC Sugar Ltd. Village Loyan Malakpur, Tehsil Baraut, District Bagpat-250611.	77.70
20	03701 Simbhaoli	The Simbhaoli Sugar Mills Ltd., P.O.Simbhaoli, District Ghaziabad-245207	83.44
21	35201 Titawi	Siel Ltd., Titawi, District Muzaffarnagar	87.54
22	36301 Agauta	Willard India Ltd., Sugar Division: (Agauta Sugar & Chemicals), Village Bhansoria, Agauta, District Bulandshahr	79.34
23	47701 Todapur	Shakumbhari Sugar & Allied Industries Ltd., At Todarpur (Raghar), District Saharanpur-247001	80.16
24	48601 Tikaula	Tikaula Sugar Mills Ltd., Village Tikaula Teh. Jansath, District Muzaffarnagar,	82.62
25	48701 Unn	M/s Kasturi Sugar Mills Unn, Teh. Kerana, District Muzaffarnagar,	*
26	50601 Nayabaas	Daya Sugar, Naya Baas, Tehsil Gagalheri, District Saharanpur.	*
27	02208 Bijnor	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit. Bijnor, District Bijnor-246701	72.78
28	02209 Amroha	U.P. State Sugar Corporation.Ltd., Unit Amroha, District Moradabad-244221	72.78
29	03801 Chhata	Chhata Sugar Co. Ltd., P.O. Chhata, District Mathura-281401	69.50
30	03901 Chandpur	U.P. State Sugar Corporation. Ltd., P.O. Chandpur, District Bijnor-246725	*
31	04201 Gajraula	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Gajraula, Hassanpur, District Moradabad	76.88

1	2	3	4
32	04301 Bilaspur	Rudra Bilas Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Bilaspur, District Rampur-244921	71.14
33	04801 Harduaganj	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Satha, P.O.Satha, District Aligarh-202221.	76.06.
34	04901 Bisalpur	Bisalpur Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Bisalpur, District Pilibhit-262201	71.14
35	05001 Majhola	The Kisan Cooperative Sugar Factory Ltd., P.O. Majhola, District Pilibhit-262302	78.52
36	05101 Puranpur	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Teh. Pooranpur, District Pilibhit	76.06
37	05201 Kaimganj	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Kaimganj, District Farukhabad-207502	75.24
38	05301 Badaun	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Badaun, District Badaun	71.14
39	05401 Tilhar	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O.Tilhar, District Shahajahanpur.	73.60
40	05501 Belrayan	The Sarjoo Sahakari Chini Mills Ltd., Belrayan, District Lakhimpur Kheri	72.78
41	05601 Sampurnanagar	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Sampurnanagar, Teh. Nigashan, District Lakhimpur Kheri	71.96
42	05701 Semikhera	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Semi-Khera, Teh. & Distt. Bareilly-243001	73.60
43	05801 Dhampur	The Dhampur Sugar Mills Ltd., P.O. Dhampur, District Bijnor-246261	*
44	05803 Asmoli	Dhampur Sugar Mills Ltd., Asmoli, Teh. Sambhal, District Moradabad	76.06
45	05901 Seohara	Upper Ganges Sugar & Industries Ltd., P.O. Seohara, District Bijnor-246746	77.70
46	06102 Pilibhit	L.H. Sugar Factories Ltd., P.O. Pilibhit, District Pilibhit-262001	78.52
47	06201 Rosa	Rosa Sugar Works Ltd., (Prop. Oudh Sugar Mills Ltd.) P.O. Rosa, District Shahajahanpur-242406	79.34
48	06301 Gola	Bajaj Hindusthan Ltd., P.O.Golagokarahnath, District Lakhimpur Kheri 262802.	*

1	2	3	4
49	06401 Aira	The Govind Sugar Mills Ltd., P.O.Aira Estate, District Lakhimpur Kheri-262722	76.06
50	06501 Paliakalan	Bajaj Hindustan Ltd., P.O. Paliakalan, District Lakhimpur Kheri-262902	*
51	06601 Baheri	The Kesar Enterprises Ltd., P.O.Baheri, District Bareilly-243201	81.80
52	06701 Neoli	The Neoli Sugar Factory, Manpurnagaria, P.O.Neoli, District Etah-207402	*
53	06801 Hargaon	The Oudh Sugar Mills Ltd., P.O.Hargaon, District Sitapur-261121	81.80
54	31701 Powayan	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Powayan, District Shahajahanpur	69.50
55	31801 Ghatampur	Ghatampur Sugar Co. Ltd., Teh. Ghatampur, District Kanpur, Kanpur.	72.78
56	32901 Najibabad	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Sneh Road, Najibabad, District Bijnor-246763	80.16
57	34501 Dhanaura	Oswal Agro Mills Ltd., Dhanaura, Teh.: Hasanpur, District Moradabad	76.06
58	36101 Venus	Venus Sugar Ltd., Shiv Shakti Nagar, Mazhawali(Bhartra), Teh. Sambhal, District Moradabad	*
59	47501 J.K. Sugar	J.K.Industries Ltd., P.O.Mirganj, District Bareilly	76.88
60	47801 Dwarikesh	Dwarikesh Sugar Ind. Ltd., Bundki, District Bijnor	84.26
61	48301 J.B.Ganj (Ajabpur)	Ghaghara Sugar Ltd., Unit Gomti Sugar Mills, Village Ajabpur, District Lakhimpur Kheri - 261505	86.72
62	48401 Agwanpur	Dewan Sugars Ltd., Agwanpur, District Moradabad	73.60
63	48501 Rupapur	Kitply Industries Ltd., Sugar Unit: Rupapur, Tehsil Shahbad, District Hardoi	*
64	02215 Burhwal	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit. Burhwal, P.O.Burhwal, District Barabanki-225202	69.50
65	02216 Jarwal	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit.Jarwal Road, P.O.Jarwal Road, District Bahraich-271901	*
66	02217 Pipraich	U.P. State Sugar Corporation Ltd., P.O. Pipraich (Unit : Pipraich), District Gorakhpur-273151.	*
67	02219 Siswabazar	U.P. State Sugar Corporation Ltd., P.O Siswabazar(Unit: Siswabazar), District Gorakhpur-273253	69.50

1	2	3	4
68	02220 Khadda	The U.P. State Sugar Corporation Ltd. Unit Khadda, P.O. Rajabazar, Khadda, District Padrauna-273415	70.32
69	02221 Lakshmiganj	U.P. State Sugar Corporation. Ltd., Unit. Lakshmiganj, P.O. Lakshmiganj, District Padrauna-274306	69.50
70	02222 Ram Kola (Corpn.)	The U.P. State Sugar Corporation. Ltd., Unit. Ram Kola, P.O. Ram Kola, District Padrauna-274701	69.50
71	02223 Bhatni	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit. Bhatni, P.O. Bhatni, District Deoria-274701	*
72	03002 Ramkola	Gangeshwar Ltd., Unit. Ramkola, P.O. Ramkola, District Kushinagar.	73.60
73	03702 Chilwaria	Chilwaria Sugar & Chemicals Ltd., P.O. Chilwaria, District Baharaich	76.88
74	05802 Rauzagaon	Dhampur Sugar Mills Ltd., (Unit Dhampur), Rauzagaon-225402, Teh. Ram Snehi Ghat, District Barabanki.	78.52
75	06902 Daryapur	Nandganj Sihori Sugar Co. Ltd., Unit: Daryapur, Post Daryapur, District Rai Bareilly-229 001.	73.60
76	07001 Nanpara	Saravasthi Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Nanpara, District Bahraich.	75.24
77	07101 Kashi	Kashi Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Aurai, District Varanasi-221301	69.50
78	07201 Rasra	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Rasra, District Ballia-221712	69.50
79	07301 Sathian	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Sathian, District Azamgarh-276001	*
80	07401 Ghosi	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Ghosi, District Mau,	69.50
81	07501 Sultanpur	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Sultanpur, Sultanpur-208001	72.78
82	07601 Mahmudabad	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Mahmudabad, District Sitapur-261203	73.60
83	07901 Captainganj	The Kanoria Sugar & General Mfg. Company Ltd., P.O. Captainganj, District Deoria - 274303	73.60
84	08101 Seorahi	The United Provinces Sugar Company Ltd., P.O. Seorahi, District Padrauna-274406	75.24
85	08201 Baitalpur	U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Baitalpur, P.O. Baitalpur, District Deoria-274406	*
86	08301 Deoria	U.P. State Sugar Corporation Ltd. Unit Deoria, P.O. Deoria, District Deoria-274001	*
87	08401 Pratappur	The Pratappur Sugar & Industries Ltd., P.O. Pratappur, District Deoria-274703	77.70

1	2	3	4
88	08501 Walterganj	Govindnagar Sugar Ltd., P.O. Walterganj, District Basti-272182.	77.70
89	08502 Basti	The Basti Sugar Mills Co. Ltd., P.O. & District Basti-272003	81.80
90	08601 Biswan	The Seksaria Biswan Sugar Factory Ltd., P.O. Biswan, District Sitapur-261201	80.16
91	08701 Ratna	U.P. State Sugar Corporation. Ltd., Unit. Shahganj(Ratna), District Jaunpur-223001.	*
92	08801 K.M.Sugar	Kamalapat Motilal Sugar Mills Ltd., P.O.Motinagar, District Faizabad-224001	74.42
93	08901 Balrampur	Balrampur Chini Mills Ltd., P.O. Balrampur, District Gonda-271201.	81.80
94	09001 Tulsipur	Balrampur Chini Mills Ltd., Tulshipur Factory Branch, P.O. Tulsipur, District Gonda-271208.	79.34
95	09201 Babhnan	The Balrampur Chini Mills Ltd., P.O.Babhnan, District Gonda-272161.	84.26
96	37301 Gadoura	J.H.V. Sugar Corporation Ltd., Village Gadoura, Teh. Nichlaul, District Maharajganj-273305	77.70
97	41901 Ramgarh	Dalmia Cement (Bharat) Ltd., (Unit Ramgarh Chini Mills), Ramgarh, Teh. Misrikh, District Sitapur	80.16
98	47601 Oswal Overseas	Oswal Overseas Ltd., P.O.Nawabganj, District Bareilly-262406.	*
99	48001 Maizapur	Indo Gulf Industries Ltd., P.O.Maizapur, District Gonda.	71.14
100	50401 Kamlapur	Kamlapur Sugar & Industries Ltd., (formerly Magna Agro Industries Ltd.) Kamlapur Tehsil Sidholi, District Siapur	76.88

UTTARANCHAL

1	02207 Doiwala	U.P. State Sugar Corporation. Ltd., P.O.Doiwala-240140, District Dehradun,-240140	71.96
2	03101 Iqbalpur	The Mahalakshmi Sugar Mills Company Ltd., P.O.Iqbalpur, Distt. Haridwar-247668	76.06
3	03201 Lhaksar	Rai Bhadur Narain Singh Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O.Lhaksar Junction, District., Haridwar	80.98
4	49201 Libberheri	Associated Sugar Mills Ltd., Libberheri, District Haridwar.	82.62

1	2	3	4
5	04001 Kichha	Kichha Sugar Co. Ltd., P.O. Kichha, District Nainital-263148	78.52
6	04401 Bazpur	The Bazpur Cooperative Sugar Factory Ltd., P.O. Bazpur, District Nainital-262401	75.24
7	04501 Nadehi	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Rajapur-Pooranpur-Nadehi, P.O. Jaspur, District Nainital-244712	81.80
8	04601 Sitarganj	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., The.Sitarganj, District Nainital	75.24
9	04701 Gadarpur	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O.Gadarpur, District Nainital	71.14
10	06101 Kashipur	DSM Agro Products Ltd., Unit DSM Sugar (Kashipur), P.O.Kashipur, District Nainital-244713	79.34

NOTE :-

* The information in respect of the sugar factory for determination of Statutory Minimum Price for the 2002-2003 sugar season has not been received as of date. The minimum price of sugarcane payable by the sugar factory will be notified on receipt of requisite information.

PART II

The sugar factories mentioned in column 3 below of this Part did not crush cane in the previous sugar season(s). The minimum price of sugarcane that shall be payable by the owners of the vacuum pan sugar process sugar factories specified in column 3 of this Part or their agents for the sugar year 2002-2003 ending the 30th September, 2002 shall be notified by the Central Government when they resume functioning.

Serial Number	Code number	Name of the factory
1	2	3
ANDHRA PRADESH		
1	23603 Miryalguda	The Nizam Sugar Factory Ltd., P.O. Miryalguda, District Nalgonda
2	24401 Palakol	The Palakol Cooperative Sugars Ltd., Poolarelli, P.O. Palakol, District West Godavari
3	24801 Cuddapah	The Cuddapah Cooperative Sugar Ltd., Tal. Daulatapuram, District Cuddapah-516163
4	24901 Nandyal	Nandyal Cooperative Sugar Ltd., P.O. Ponnapuram Nandyal, Distt. Kurnool-518503

1	2	3
5	25001 Nagarjuna	The Nagarjuna Cooperative Sugars Limited, P.O. Guruzala, District Guntur
6	25701 Kirlampudi	The Kirlampudi Sugar Mills Ltd., P.O. Pithapuram, District East Godavari-533450
BIHAR		
1	08004 Marhowrah	Cawnpore Sugar Works Ltd., Marhowrah Factory Branch, P.O. Marhowrah, Distt. Saran
2	21401 Garaul	Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit. Garaul, P.O. Garaul, District Vaishali-844118
3	21402 Ryam	The Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit. Ryam, Distt. Darbhanga-847237
4	21403 Lohat	Bihar State Sugar Corporation Ltd., P.O. Lohat, District Madhubani-847231
5	21404 Sakri	Bihar State Sugar Corporation Ltd., P.O. Sakri, District Madhubani-847239
6	21405 Samastipur	Bihar State Sugar Corporation Ltd., P.O. Samastipur, District Samastipur-848101
7	21406 Banmankhi	The Bihar State Sugar Corporation Ltd., P.O. Banmankhi, District Purnea-854202
8	21407 Lauriya	Bihar State Sugar Corporation Limited, P.O. Lauriya, District West Champaran-845453
9	21408 Sugauli	The Bihar State Sugar Corporation Ltd., P.O. Sugauli, District East Champaran-845456
10	21409 Motipur	Bihar State Sugar Corporation Ltd., P.O. Motipur, District Muzaffarpur-843111
11	21410 Mirganj	The Bihar State Sugar Corporation Limited, P.O. Mirganj, District Gopalganj-841438
12	21411 Siwan	The Bihar State Sugar Corporation. Ltd., P.O. Siwan, District Siwan
13	21412 New Savan	The Bihar State Sugar Corporation Ltd., P.O. New Savan, District Siwan
14	22001 Chanpatia	Champaran Sugar Co. Ltd., P.O. Chanpatia, District West Champaran
15	22002 Barachakia	Champaran Sugar Co. Ltd., P.O. Barachakia, District East Champaran
16	21413 Bihta	The Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit. Bihta, P.O. Bihta District Patna
17	21414 Warisaliganj	The Bihar State Sugar Corporation. Ltd., Unit. Warisaliganj, P.O. Warisaliganj, District Nawadah
18	21415 Gararu	Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit. Gararu, P.O. Guraru, District Gaya

1	2	3
ASSAM		
1	22701 Chargola	Arihant Sugar Ltd., P.O. Ratabari, Chargola, District Karimganj
2	22801 Baruabamungaon	The Assam Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Baruabamungaon, District Sibsagar-785610
NAGALAND		
1	23501 Dimapur	Nagaland Sugar Mills Co.Ltd., P.O. Dimapur, Distt Kohima,
ORISSA		
1	23201 Rayagada	Jeypore Sugar Co. Ltd., P.O. Rayagada, Distt. Koraput-765002
2	30702 Deogaon	Ponni Sugars & Chemicals Ltd., Sambarpalli, P.O. Deogaon, Distt. Bolangir-767020
3	32401 Nayagarh	The Cooperative Sugar Industries Ltd., (Under the Management of Dharni Sugar & Chemical Ltd.), At P.O. Nayagarh, Distt. Puri
4	36401 Dharamgarh	Western India Sugar & Chemicals Industries Ltd., Dharamgarh, Teh. Dharamgarh, Distt. Kalahandi
SOUTH GUJARAT		
1	35701 Amod	Shri Reva Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Reva Nagar, State Highway No.6, Taluka Amod, Distt. Bharuch-392110
2	41201 Virpur	Shree Valod Pradesh Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Dadaria (Virpur) Tal. Valod, Distt. Surat-394 640
GUJARAT (SAURASHTRA)		
3	11201 Una	Shri Una Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Una (Sorath), Distt. Junagarh-362520
4	11501 Palaj	Charotar Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Village Palaj, Taluka Petland, Distt. Kaira-388450
5	11601 Dhoraji	Shri Sardar Vallabhai Patel Khand Udyog Cooperative Societies Ltd., Jamnavad Road, P.O. Dhoraji, Distt. Rajkot-360 110
KARNATAKA		
1	27201 Sundri	The Kampli Cooperative Sugar Factory Limited, P.O. Kampli, Distt. Bellary,
2	28201 Munirabad	Salarjung Sugar Mills Ltd., P.O. Munirabad, Distt. Raichur

1	2	3
3	28301 Shimoga	Tungbhadra Sugar Works Ltd., P.O. Shimoga, Distt. Shimoga – 577 201
KERALA		
1	31201 Mannam	The Mannam Sugar Mills Cooperative Ltd., P.O. Pandalam, Distt. Alleppey
2	31401 Tiruvalla	The Travancore Sugars & Chemicals Ltd., Valanjavattam, P.O. Tiruvalla, Distt. Quilon
MADHYA PRADESH		
1	09701 Dallauda	The Jiwaji Rao Sugar Co. Ltd., Dallauda, Distt. Mandasaur-458667
2	09801 Mehidpur	M.P. State Industries Corporation. Ltd., P.O. Mohidpur Road, Distt. Ujjain
3	10001 Jaora	Jaora Sugar Mills, Jaora, Distt. Ratlam-457226
MAHARASHTRA		
1	19401 Dongarkada	Marathwada Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Dongarkada, Taluka Kalamhuri, Distt. Parbhani – 431 701
2	20101 Kasoda	Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kasoda, Erandol, Distt. Jalgaon-425110
3	20401 Sanjay	Sanjay Sahakari Sakhar Karkhana Dhule Sindkheda, Amalner Ltd., Vijay Nagar, Post Naval Nagar, Tal. & Distt. Dhule-424310
4	21101 Dhamangaon	Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Dhamangaon, Tal. Chandpur, Chandpur Rly. Station, Distt. Amravati
5	38301 Sindkheda	Sindkheda Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., At Degaon, Teh. Sindkheda, Distt. Dhulia
PUNJAB		
1	33301 Budhlada	The Budhlada Cooperative Sugar Mills Ltd., Budhlada-151502, Teh. Mansa, Distt. Bhatinada

1

2

3

RAJASTHAN

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | 02001
Keshoraipatan | Shri Keshoraipatan Sahakari Sugar Mills Ltd.,
Keshoraipatan-312204, Distt. Bundi |
| 2 | 02101
Bhupalsagar | The Mewar Sugar Mills Ltd.,
Bhupalsagar-312204, Distt. Chittorgarh |

UTTAR PRADESH

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1 | 02203
Meerut | The U.P. State Sugar Corporation. Ltd.,
Meerut City, Distt. Meerut-250002. |
| 2 | 02210
Rampur | The U.P. State Sugar Corporation. Ltd.,
Unit Rampur, Distt. Rampur-244901 |
| 3 | 02211
Bareilly | U.P. State Sugar Corporation. Ltd.,
P.O. Bareilly (Unit Bareilly), Distt. Bareilly-243406 |
| 4 | 02212
Maholi | U.P. State Sugar Corporation Ltd.,
P.O. Maholi (Unit Maholi), Distt. Sitapur-261141 |
| 5 | 02213
Hardoi | U.P. State Sugar Corporation Ltd.,
P.O. Hardoi (Hardoi Unit), Distt. Hardoi-241001 |
| 6 | 04101
Experimental | The Experimental Sugar Factory,
(National Sugar Institute)
P.O. Kalyanpur, Distt. Kanpur. |
| 7 | 06001
Raja-Ka-Sahaspur | The Ajudhia Sugar Mills,
P.O. Raja-Ka-Sahaspur,
Distt. Moradabad-202415 |
| 8 | 02214
Barabanki | The U.P. State Sugar Corporation Ltd.,
(Unit. Barabanki), P.O. Barabanki, Distt. Barabanki-225202 |
| 9 | 02218
Ghughli | U.P. State Sugar Corporation. Ltd.,
P.O. Ghughli (Unit: Ghughli), Distt. Maharajganj-273151 |
| 10 | 02224
Chittauni | U.P. State Sugar Corporation Ltd.,
P.O. Chhitauni, Distt. Pdrauna-273414 |
| 11 | 02226
Munderwa | U.P. State Sugar Coprn. Ltd.,
P.O. Munderwa, Distt. Basti-272178 |
| 12 | 06901
Nandganj | Nandganj Sihori Sugar Co. Ltd.,
Village Sihori, P.O. Nandganj, Teh. Saidpur,
Distt. Ghazipur-233302 |
| 13 | 07701
Anandnagar | Swadeshi Mining & Manufacturing Co. Ltd.,
P.O. Anandnagar, Distt. Maharajganj |

1	2	3
14	07702 Khalilabad	Khalilabad Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Khalilabad, Distt. Basti-272175
15	07801 Sardarnagar	Saraya Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Sardarnagar, Distt. Gorakhpur-273202
16	08001 Padrauna	Cawnpore Sugar Works Ltd., Padrauna Factory Branch, P.O. Padrauna, Distt. Padrauna-274304
17	08002 Kathkuiyan	Cawnpore Sugar Works Ltd., Unit Kathkuiyan, P.O. Kathkuiyan, Distt. Deoria-274303
18	08003 Gauribazar	Cawnpore Sugar Works Ltd., Gauri Factory Branch, P.O. Gauribazar, Distt. Deoria-274202
19	09101 Nawabganj	U.P. State Sugar Corporation. Ltd., P.O. Sugar Factory, Nawabganj, Distt. Gonda-271303.
20	41701 Dhuriapar	Dhuriapar Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Hapur – Gajpur, P.O. Deidiha, District Gorakhpur

[No. 3-1/2001-SPY. D II/SP]
SUNDEEP KHANNA. Jt. Secy.